



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

No. 35]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 28—सितम्बर 3, 2010 (भाद्रपद 6, 1932)

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 28—SEPTEMBER 3, 2010 (BHADRA 6, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 2010

सं. 443, दिनांक 13 जुलाई 2010—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (1973) की अधिकारी श्रीमती नीता कपूर को रक्षा मंत्रालय में दिनांक 01 जून, 2010 से सचिव (रक्षा वित्त) के पद पर नियुक्त करते हैं।

टी जोसफ

उप वित्तीय सलाहकार

(स्थापना/मु.का)

एकीकृत मुख्यालय

नौ सेना

प्रशासन निदेशालय (सिव)

सं. 444, दिनांक 13 जुलाई 2010—राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत, उप निदेशक (वर्ग 'क' राजपत्रित) वेतन पट्टी-3 (रु. 15,000—39,100/-) एवं ग्रेड पे

रु. 6,600/- के रूप में 04 अगस्त 2009 से 31 दिसम्बर 2009 तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति को बढ़ाते हैं :—

श्री ए के सिंहल

श्री अमित कुमार

श्री बी पी शर्मा

श्री डी सी त्यागी

श्री डी वी सिंह

श्री डी एस अरोरा

श्री जगदीश सिंह

श्री के सी भारद्वाज

श्री के डी मैत्र

श्रीमती के एम हेमलता

श्री एम के झा

श्री एम एस सलील

श्री एम ए खान

श्री मान सिंह

श्री मिलिंद होनवाड

श्री पी एन एस यादव

श्री पी पी तनेजा

श्री प्रदीप कुमार

श्री प्रमोद कुमार

श्री आर के सहरावत

श्री आर एम शुक्ला

श्री आर के शुक्ला

श्री एस हेमंत कुमार

श्री सुधीर कुमार

श्रीमती सुन्नाना भारती

श्री यू एस लाटवाल

यह नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों से बिना सूचना अथवा नियमित पदधारक के उपलब्ध होने पर रद्द की जा सकती है।

ए के लारोइया
उप मुप्रअ (ए)

सेना शाखा

सं. 445, दिनांक 13 जुलाई 2010--राष्ट्रपति महोदय, यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

फ्ला लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

फ्ला लेफ्टि वसुधा आहूजा (एमएस-15568डब्ल्यू), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

फ्ला लेफ्टि विकास कुमार सोरल (एमएस-15823एक्स) (एएफ-29431), आयोग की तिथि 25 अप्रैल 2008 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 25 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति/स्नातकोत्तर योग्यता के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

फ्ला लेफ्टि जसबीर दलाल (एमएस-16050पी) (एएफ-30050ए), आयोग की तिथि 26 फरवरी 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 26 अगस्त 2008 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए

06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान सुमन धनखड (एमएस-16091वाई), एएमसी, 27 जुलाई 2009

कप्तान रुवेन्द्र कुमार बनसोड (एमएस-16131पी), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान राकेश होलला ए (एमएस-16144एम), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान मुक्तादिर मलिक (एमएस-16145पी), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान हरेन्द्र गुप्ता (एमएस-16148एच), एएमसी, 29 जुलाई 2009

कप्तान गुरुप्रकाश के वी (एमएस-16151एच), एएमसी, 31 जुलाई 2009

कप्तान राखी सिंह (एमएस-16172वाई), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान राऊत विशाल नंदकुमार (एमएस-16183एल), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान ज्योति यादव (एमएस-16192एम), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान अनुराग कमल मिश्र (एमएस-16210के), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान पाटिल नवनीत रमेशभाई (एमएस-16214ए), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान लक्ष्मी दुकारिया (एमएस-16219वाई), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान कमल किशोर (एमएस-16237एफ), एएमसी, 13 अगस्त 2009

कप्तान सौरभ कुमार (एमएस-16253वाई), एएमसी, 19 अगस्त 2009

कप्तान रंगनाथ रेड्डी पी आर (एमएस-16260पी), एएमसी, 20 अगस्त 2009

कप्तान रोहन जे (एमएस-15834के), आयोग की तिथि 22 मई 2008 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22 नवम्बर 2007 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

राष्ट्रपति महोदय, यथासंशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

ले अभिनव श्रीवास्तव (एमएस-15966एक्स), एएमसी, 05 मार्च 2009

ले शंकर जे (एमएस-15971एच), एएमसी, 05 मार्च 2009

ले रोहित शिवहरे (एमएस-15982पी), एएमसी, 05 मार्च 2009

ले सत्यनजय साहू (एमएस-15965पी), एएमसी, 05 मार्च 2009
 ले परवेन्द्र सिंह (एमएस-15967ए), एएमसी, 05 मार्च 2009
 ले मार्यंक कुमार (एमएस-15984ए), एएमसी, 05 मार्च 2009
 अनुदेश 14/79 द्वारा यथाशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन
 राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

सर्जन लेफ्टि पद पर (परख पर)

सर्जन लेफ्टि गाईचाँगसुई लाऊरेंस कामाई (एमएस-15609पी)
 (75968बी), आयोग की तिथि 06 सितम्बर 2007 को वेतन और पदोन्नति
 के लिए ज्येष्ठता 06 मार्च 2007 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के
 लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं
 गिनी जाएगी)

राष्ट्रपति महोदय, यथासंशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन
 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

सर्जन सब लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

सर्जन सब लेफ्टि श्याम कुमार एस (एमएस-15960डब्ल्यू), एएमसी,
 05 मार्च 2009

सर्जन सब लेफ्टि हरी जे पी (एमएस-15961वाई), एएमसी, 05 मार्च
 2009

सर्जन सब लेफ्टि रेनीष आर (एमएस-15962एफ), एएमसी, 05 मार्च
 2009

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक

स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 446, दिनांक 13 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
 अधिकारी को परख अवधि पूरा होने पर पक्का करते हैं:--

नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

पद, नाम, व्यक्तिगत सं. तथा कमीशन की तिथि

कप्तान सुरेन्द्र सिंह (एनटीआर-16788एम), 15 फरवरी 2008

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक

स से चि से (मा सं)

सेना सचिव शाखा

सं. 447, दिनांक 14 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां
 करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

जनरल के मूल रैंक में

रैंक, नाम, आईसी, आर्म तथा जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
 ले जनरल बी के सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एडीसी,
 (आईसी-24173), राजपूत, 01 अप्रैल 2010

थल सेना मुख्यालय

थल सेनाध्यक्ष के पद पर

रैंक, नाम, आईसी, आर्म तथा थल सेनाध्यक्ष की प्रभावी तिथि

जनरल बी के सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एडीसी,
 (आईसी-24173), राजपूत, 01 अप्रैल 2010

एन के फूकन

निदेशक/एमएस(एक्स)

थल सेना शाखा

सं. 448, दिनांक 14 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
 अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

सर्ज कैप्टन (व समकक्ष) से सर्ज कमोडोर (व समकक्ष) के पद पर

जे डिसूजा (एमआर-03916ए) (एफ-75237), 15 जनवरी 2009

टी नागराजा (एमआर-03974के) (एफ-75461), 21 जनवरी 2009
 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 16 जनवरी 2009 से
 दी जाती है।

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक

स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 449, दिनांक 14 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित
 पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल

आईसी सं. नाम तथा आर्म

(आईसी-46754) भास्कर बनर्जी, ईएमई

(आईसी-49068) विवेक वर्मा, आर्टी

---16 दिसम्बर 2004

जसवंत सिंह

संयुक्त निदेशक एमएस-8सी

सेना शाखा

सं. 450, दिनांक 14 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी को उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले कर्नल के पद पर

राजीव देब (एमआर-08497एक्स), एएमसी, 23 दिसम्बर 2009

संदीप धोंगड़ा (एमआर-07079डब्ल्यू), एएमसी, 20 जनवरी 2010

एस के सहारन (एमआर-07100एन), एएमसी, 18 फरवरी 2010

एकता पगटीया (एमआर-07946पी), एएमसी, 01 फरवरी 2010

राजीव कुमार (एमआर-07935एच), एएमसी, 29 जुलाई 2009

आर के जोशी (एमआर-07087पी), एएमसी, 20 जनवरी 2010

संजय कुमार दत्त (एमआर-07110एक्स), एएमसी, 20 जनवरी 2010

अमन प्रीत (एमआर-07114एन), एएमसी, 20 जनवरी 2010

गणेश मूर्ती राम मूर्ती वशिष्ठ (एमआर-07832के), एएमसी, 04 फरवरी 2010

मोहन भिकाजी महाले (एमआर-07836ए), एएमसी, 03 फरवरी 2010

अनूप कृष्णन जानकीराम (एमआर-07776डब्ल्यू), एएमसी, 12 फरवरी 2010

विचारे नितीन वसन्त (एमआर-07777वाई), एएमसी, 12 फरवरी 2010

सौरभ बंदोपाध्याय (एमआर-07932पी), एएमसी, 09 फरवरी 2010

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

स्काइन लीडर से विंग कमांडर के पद पर

स्काइन लीडर अलका बक्शी (एमएस-13771एन) (एफ-24726बी), 30 दिसम्बर 2009

स्काइन लीडर ए नागासुब्रामनीयम (एमएस-13470के) (एफ-25563एच), 19 जनवरी 2010

सर्जन लेफ्टि कमांडर से सर्जन कमांडर के पद पर

सर्जन लेफ्टि कमांडर सुधा देवी एस (एमएस-13388पी) (75669जैड), 13 जनवरी 2010

मेजर से लेफ्टि कर्नल के पद पर

मेजर जयन्ती बनिक् (एमएस-13606एच), 25 फरवरी 2010

मेजर नोनिका गोयल (एमएस-15005डब्ल्यू), 15 मार्च 2010

मेजर कुरीन जार्ज (एमएस-14065वाई), 04 जनवरी 2010

मेजर देबाशीष मजूमदार (एमएस-13396एन), 25 जनवरी 2010

मेजर राजन मल्होत्रा (एमएस-13641एल), 04 फरवरी 2010

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर के पद पर

वितेश पोपली (एमआर-08790पी), एएमसी, 20 जनवरी 2010

ब्रजेश कुमार (एमआर-08910एच), एएमसी, 20 जनवरी 2010

मोना दूबे (एमआर-08912एन), एएमसी, 20 जनवरी 2010

शैलेश मोगरा (एमआर-08934एम), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

विमल एन (एमएस-15209एच) (एमआर-08935पी), एएमसी, 20 जनवरी 2010

मनीष कुमार (एमएस-15245एन) (एमआर-08939एल), एएमसी, 21 अप्रैल 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 जनवरी 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

शिवानी (एमएस-15451एक्स) (एमआर-08940ए), एएमसी, 22 जनवरी 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 18 अक्टूबर 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

फ्लाईट लेफ्टि से स्काइन लीडर के पद पर

फ्लाईट लेफ्टि मनीष कुमार सिंह (एमएस-14905एन) (एफ-27668एल), 04 दिसम्बर 2008

फ्लाईट लेफ्टि राजेश्वरी के ए (एमएस-15057एम) (एफ-28368टी), 12 अप्रैल 2009

फ्लाईट लेफ्टि विनोद कुमार वर्मा (एमएस-15170एफ) (एफ-28402एल), 16 जून 2009

फ्लाईट लेफ्ट विनय कुमार दूबे (एमएस-15174एक्स) (एफ-28394ए), 16 दिसम्बर 2009	कैप्टन दवेन्द्र सिंह (एमएस-15108पी), 20 जनवरी 2010
फ्लाईट लेफ्ट के कनगराजू (एमएस-15176एच) (एफ-28396एच), 16 दिसम्बर 2009	कैप्टन बिजोय कुमार मल्लिक (एमएस-15109एक्स), 20 जनवरी 2010
फ्लाईट लेफ्ट ज्योत्सना अत्री (एमएस-15177एल) (एफ-28412एल), 16 दिसम्बर 2009	कैप्टन पडया कपिल हरेशकुमार (एमएस-15191एक्स), 20 जनवरी 2010
फ्लाईट लेफ्ट अपूर्व पी बाजपेयी (एमएस-15179डब्ल्यू) (एफ-28401एच), 16 दिसम्बर 2009	कैप्टन विश्राम मौर्य (एमएस-15204के), 20 जनवरी 2010
फ्लाईट लेफ्ट विजय मैत्री (एमएस-15182डब्ल्यू) (एफ-28400एफ), 16 दिसम्बर 2009	कैप्टन राजेन्द्र प्रताप सिंह (एमएस-15205एम), 20 जनवरी 2010
फ्लाईट लेफ्ट के मणि (एमएस-15189ए) (एफ-28397एल), 16 दिसम्बर 2009	कैप्टन संजीव कुमार कटारा (एमएस-15206पी), 20 जनवरी 2010
फ्लाईट लेफ्ट अरुण कुमार पात्रा (एमएस-15230एल) (एफ-28398आर), 16 दिसम्बर 2009	कैप्टन मुहम्मद अब्दुल नाजर ए (एमएस-15210एक्स), 20 जनवरी 2010
फ्लाईट लेफ्ट रोहित वशिष्ठ (एमएस-15231एन) (एफ-28410के), 16 दिसम्बर 2009	कैप्टन शैलजा चौधरी (एमएस-15151डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2009
फ्लाईट लेफ्ट नीति सिंधवानी (एमएस-15238एक्स) (एफ-28413ए), 11 फरवरी 2010	कैप्टन अमित कुमार राय (एमएस-15198एफ), 20 जनवरी 2010
कैप्टन से मेजर के पद पर	कैप्टन गनानाशेखरन आर (एमएस-15211ए), 20 जनवरी 2010
कैप्टन भावेश तालेरा (एमएस-14914पी), 27 दिसम्बर 2009	कैप्टन लेनिन लोसिगाम (एमएस-15212एच), 20 जनवरी 2010
कैप्टन मोहम्मद अनास मजहर अजीत (एमएस-14917एच), 27 दिसम्बर 2009	कैप्टन बच्छाव निलेश दादाजी (एमएस-15213एल), 20 जनवरी 2010
कैप्टन मीनू डागी (एमएस-14920एच), 27 दिसम्बर 2009	कैप्टन पी कार्तिकेयन (एमएस-15214एन), 20 जनवरी 2010
कैप्टन सुमित कुमार अग्रवाल (एमएस-14922एन), 27 दिसम्बर 2009	कैप्टन सोनवणे श्रीकांत अशोकराव (एमएस-15215डब्ल्यू), 20 जनवरी 2010
कैप्टन अरविंद सेमालती (एमएस-14937डब्ल्यू), 27 दिसम्बर 2009	कैप्टन रवि शंकर लाल (एमएस-15216वाई), 20 जनवरी 2010
कैप्टन अमित कुमार श्रीवास्तव (एमएस-14938वाई), 27 दिसम्बर 2009	कैप्टन नवीन कुमार (एमएस-15220एफ), 20 जनवरी 2010
कैप्टन नेहा गोयल (एमएस-14944एम), 27 दिसम्बर 2009	कैप्टन धिरेन्द्र नाथ माझी (एमएस-15223पी), 20 जनवरी 2010
कैप्टन अंकुर शर्मा (एमएस-14945पी), 27 दिसम्बर 2009	कैप्टन भानू कुमार शर्मा (एमएस-15225ए), 20 जनवरी 2010
कैप्टन प्रवेश मलिक (एमएस-15940एच), 18 नवम्बर 2009	कैप्टन दिव्या (एमएस-15232डब्ल्यू), 20 जनवरी 2010
कैप्टन अनुपम पारीक (एमएस-15112एक्स), 16 दिसम्बर 2009	कैप्टन गोपाल कृष्ण यादव (एमएस-15399ए), 20 जनवरी 2010
कैप्टन पूर्णिमा शर्मा (एमएस-15123के), 16 दिसम्बर 2009	कैप्टन सुजीत दास (एमएस-15400के), 20 जनवरी 2010
कैप्टन सुनीता घलोत्रा (एमएस-15147एन), 16 दिसम्बर 2009	कैप्टन तिरथंकर कुमार घोष (एमएस-15317एम), 22 मार्च 2010
कैप्टन तारलकर नरेन्द्र रामचन्द्र (एमएस-15149वाई), 16 दिसम्बर 2009	सर्जन लेफ्ट से सर्जन लेफ्ट कमांडर के पद पर
कैप्टन प्रभू देसाय पदमिनी संदीप (एमएस-15156पी), 16 दिसम्बर 2009	सर्जन लेफ्ट सिद्धार्थ सहरावत (एमएस-14867एच) (75857ए), 09 अगस्त 2009
	सर्जन लेफ्ट सुधिनी पवन कुमार (एमएस-14873डब्ल्यू) (75859एफ), 11 अगस्त 2009
	स्थायी कमीशन
	कप्तान के पद पर
	फातीमा अब्बास हुसेनी (एमआर-08845एन), एएमसी, 11 फरवरी 2010

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

लेफ्टि से कप्तान के पद पर

पद, नाम, व्यक्तिगत संख्या तथा पदोन्नति की तिथि

लेफ्टि दिलीप कुमार शुक्ला (एनटीआर-16786एफ), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि अमन दीप सिंह (एनटीआर-16796एल), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि सुरेन्द्र सिंह (एनटीआर-16788एम), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि भूपेन्द्र सिंह भाटी (एनटीआर-16789पी), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि प्रदीप कुमार सिंह (एनटीआर-16790के), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि नरेन्द्र सिंह रावत (एनटीआर-16791एम), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि महेश महतो (एनटीआर-16793एक्स), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि साहीदुल जमन (एनटीआर-16794ए), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि राकेश कुमार शर्मा (एनटीआर-16797एन), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि पौल संचयन (एनटीआर-16798डब्ल्यू), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि आजाद खान (एनटीआर-16799वाई), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि गुडप्पा सिदापुर (एनटीआर-16792पी), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि शेख मुजिब (एनटीआर-16795एच), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि रमेश टी (एनटीआर-16787के), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि चौगुले संतोष सखाराम (एनटीआर-16801एल), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि अनिरबन चौधरी (एनटीआर-16802एन), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि अमित कुमार (एनटीआर-16800एच), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि मेरेन वती (एनटीएस-17557एच), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि अनुज कुमार (एनटीएस-17560एच), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि महेन्द्र कुमार बालिमकी (एनटीएस-17571पी), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि सोनावने विलास शंकर (एनटीएस-17558एल), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि जोयोत चट्टोपाध्याय (एनटीएस-17559एन), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि जितेश नीलोली केलोथ (एनटीएस-17561एल), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि पंकज राय (एनटीएस-17562एन), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि भोसले सतीश चन्द्रसेन (एनटीएस-17563डब्ल्यू), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि रुपिन्द्र सिंह (एनटीएस-17564वाई), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि रोहित सी जी (एनटीएस-17565एफ), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि सुशील कुमार (एनटीएस-17566के), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि मिंदू कुमार (एनटीएस-17567एम), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि कैलाश चंद समोता (एनटीएस-17568पी), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि सुनील इक्का (एनटीएस-17569एक्स), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि कमलेश कुमार (एनटीएस-17570एम), 15 फरवरी 2010

लेफ्टि मोहन शर्मा (एमएस-15532एक्स), 06 फरवरी 2008

लेफ्टि देव प्रकाश यादव (एमएस-15659ए), 01 फरवरी 2009

फ्लाईट लेफ्टि के पद पर

फ्लाईंग आफिसर अखिलेश्वर सिंह (एमएस-15499एल) (एफ-28900ए), 06 फरवरी 2008

फ्लाईंग आफिसर शर्मिला मुखर्जी सिंह (एमएस-15497ए) (एफ-28895ए), 10 फरवरी 2008

फ्लाईंग आफिसर रितु रंजन कुमार (एमएस-15561एम) (एफ-28910जी), 28 जून 2008

फ्लाईंग आफिसर रितिका चौधरी (एमएस-15650एल) (एफ-29427के), 01 फरवरी 2009

यश पांडे
बिग्रे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 451, दिनांक 15 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष पदोन्नत करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

कैप्टन बनाया जाता है

लेफ्टि गुरमीत सिंह टीए (एनटी-1209), एएमसी, (नॉन टैक टीए), 29 मार्च 2009

लेफ्टि शैलेश सिंह चौहान (टीए-42648) (इन्फैंट्री), 11 अक्टूबर 2009

लेफ्टि संजय प्रभाकर रोले (टीए-42649) (इन्फैंट्री), 14 अक्टूबर 2009

लेफ्टि उत्तम चक्रवर्ती (टीए-42650) (इन्फैंट्री), 24 अक्टूबर 2009

लेफ्टि शिवेन्द्र कुमार पाण्डेय (टीए-42651) (इन्फैंट्री), 24 अक्टूबर 2009

लेफ्ट पलदेन ठाकुर (टीए-42652) (इन्फैंट्री), 26 अक्टूबर 2009
 लेफ्ट कीर्ति कुमार एन दवे (टीए-42653) (इन्फैंट्री), 13 अक्टूबर 2009
 लेफ्ट रवि एम बिष्ट (टीए-42655) (इन्फैंट्री), 25 नवम्बर 2009
 लेफ्ट के शिवा शेखर राजू (टीए-42656) (इन्फैंट्री), 09 नवम्बर 2009
 लेफ्ट बखराव्गोंग श्याम कुर्बाह (टीए-42657) (इन्फैंट्री), 23 दिसम्बर 2009

जय राज
 अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 452, दिनांक 15 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैंट्री

मैकानाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सत्यवीर सिंह (जेसी-420160पी), 03 मार्च 2010*
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
 नायब सूबेदार जगत सिंह (जेसी-420457डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010
 नायब सूबेदार मनबीर सिंह (जेसी-420573वाई), 04 मार्च 2010*
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
 नायब सूबेदार सूर्या नाथ (जेसी-420261एच), 01 मार्च 2010
 नायब सूबेदार दव लाल सिंह (जेसी-420303के), 01 मार्च 2010
 नायब सूबेदार नारायण सिंह दानु (जेसी-420844एल), 02 मार्च 2010*
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)
 नायब सूबेदार उमेश कुमार (जेसी-420845एन), 02 मार्च 2010*
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)
 नायब सूबेदार फुल सिंह (जेसी-421185एन), 03 मार्च 2010*
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बहादुर मल कुम्हार (सं. 14915841एम अब जेसी-421523ए), 24 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार गया प्रसाद (सं. 14914488वाई अब जेसी-421524एच), 15 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार अमोल चंद्र राय (सं. 14916383एन अब जेसी-421525एल), 27 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार रंगुमुद्री रामी नायडु (सं. 14917357वाई अब जेसी-421526एन), 27 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार बंसी धर (सं. 14915743एम अब जेसी-421527डब्ल्यू), 11 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार भागीरथी चौहान (सं. 14914450पी अब जेसी-421528वाई), 15 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार अश्वनी कुमार (सं. 14914620एन अब जेसी-421529एफ), 15 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार ए कंडास्वामी (सं. 14915158एम अब जेसी-421530डब्ल्यू), 15 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार लकवीर सिंह (सं. 14913712एन अब जेसी-421531वाई), 09 मार्च 2010

हवलदार गुना सिधु मोहंता (सं. 14914531पी अब जेसी-421532एफ), 09 मार्च 2010

हवलदार अवतार किशन (सं. 14914965पी अब जेसी-421533के),
09 मार्च 2010

हवलदार रवींदर कुमार (सं. 14917019एफ अब जेसी-421534एम),
09 मार्च 2010

हवलदार बुट्टा सिंह (सं. 14912565के अब जेसी-421535पी),
02 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार अत्तर सिंह (सं. 14914748वाई अब जेसी-421536एक्स),
01 अप्रैल 2010

हवलदार अखिलेश प्रसाद (सं. 14916127वाई अब जेसी-421537ए),
01 अप्रैल 2010

हवलदार राजेश कुमार (सं. 14915504एक्स अब जेसी-421538एच),
01 अप्रैल 2010

हवलदार गोरख नाथ पांडे (सं. 14915902वाई अब जेसी-
421539एल), 01 अप्रैल 2010

हवलदार पी मुखोसन (सं. 14917856एन अब जेसी-421540ए),
01 अप्रैल 2010

हवलदार राजपाल (सं. 14916247एक्स अब जेसी-421541एच),
01 अप्रैल 2010

हवलदार मान सिंह (सं. 14916368वाई अब जेसी-421542एल),
01 अप्रैल 2010

हवलदार दिगपाल सिंह (सं. 14917262वाई अब जेसी-421543एन),
01 अप्रैल 2010

हवलदार राजू सिंह रावत (सं. 14917399एल अब जेसी-
421544डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

हवलदार टी किशोर कुमार (सं. 14917790एच अब जेसी-
421545वाई), 01 अप्रैल 2010

हवलदार अजय कुमार सिंह (सं. 14917979ए अब जेसी-
421546एफ), 01 अप्रैल 2010

हवलदार गिरीश चंद्र चंदेला (सं. 14917963पी अब जेसी-
421547के), 01 अप्रैल 2010

हवलदार राज कुमार प्रसाद (सं. 14918469एल अब जेसी-
421548एम), 01 अप्रैल 2010

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 14917823एच अब जेसी-421549पी),
01 अप्रैल 2010

हवलदार राम बीलाश (सं. 14918282वाई अब जेसी-421550के),
05 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार नजीरुद्दीन खान (सं. 14918395एफ अब
जेसी-421551एम), 01 अप्रैल 2010

हवलदार जर्नेल सिंह (सं. 14918517ए अब जेसी-421552पी),
01 अप्रैल 2010

हवलदार नरबुला ए नागेस्वरा राव (सं. 14918439एन अब
जेसी-421553एक्स), 01 अप्रैल 2010

हवलदार रवींदर कुमार (सं. 14916795पी अब जेसी-421554ए),
03 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार भोज राम वर्मा (सं. 14914689एक्स अब जेसी-421573एल),
16 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार संतोष कुमार आर एस (सं. 14915145पी अब
जेसी-421574एन), 08 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार करम सिंह पाल (सं. 14915484पी अब जेसी-421575डब्ल्यू),
08 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार रमेश पाल (सं. 14915362एल अब जेसी-421576वाई),
07 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार आत्मा राम (सं. 14915318एफ अब जेसी-421577एफ),
24 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार जगदीश नाथ (सं. 14915575वाई अब जेसी-421578के),
08 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार जनार्दन सिंह (सं. 14917896पी अब जेसी-421579एम),
24 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार प्रिया रंजन कुमार (सं. 14917907डब्ल्यू अब जेसी-
421580एफ), 01 अप्रैल 2010

हवलदार लक्ष्मण कुमार बेहरा (सं. 14914442एम अब जेसी-421581के), 28 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 14916133एम अब जेसी-421582एम), 01 मई 2010

हवलदार काली दास (सं. 14918287एक्स अब जेसी-421583पी), 04 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार मार्तण्ड सिंह (सं. 14914487डब्ल्यू अब जेसी-421507एच), 22 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश कुमार पटेल (सं. 14918458वाई अब जेसी-421508एल), 15 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार रमाकांत पांडे (सं. 14917184एम अब जेसी-421509एन), 09 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार राम अवतार (सं. 2988001एल अब जेसी-421510एच), 05 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार कृष्णा बहादुर थापा (सं. 14917042पी अब जेसी-421511एल), 11 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार के मुनियंड़ी (सं. 14917694एन अब जेसी-421512एन), 01 फरवरी 2010

हवलदार थोटा वीरा रेड्डी (सं. 14916818एल अब जेसी-421513डब्ल्यू), 16 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार भीम सिंह (सं. 14915717एल अब जेसी-421514वाई), 1 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार निहाल सिंह (सं. 14915738एफ अब जेसी-421515एफ), 17 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार बिजु पी (सं. 14915257पी अब जेसी-421516के), 01 मार्च 2010

हवलदार राम सुमेर (सं. 14915258एक्स अब जेसी-421517एम), 11 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार दिवान सिंह पटनी (सं. 14917722पी अब जेसी-421518पी), 02 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार केदार भक्तराज डडाबा (सं. 14917794वाई अब जेसी-421519एक्स), 06 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 14916374एम अब जेसी-421520एम), 01 मार्च 2010

हवलदार स्वरूप सिंह राठौर (सं. 2992012पी अब जेसी-421521पी), 01 मार्च 2010

हवलदार लक्ष्मण सिंह राजपुरोहीत (सं. 2992019वाई अब जेसी-421522एक्स), 09 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

जे राय चौधरी
अवर सचिव

सेना शाखा

नियमित सेना

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

सं. 453, दिनांक 15 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

सूबेदार (एमटी)

नायब सूबेदार बी नारायण सिंह (जेसी-664438पी), 03 नवम्बर 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

- नायब सूबेदार रमेश चंद (जेसी-664421एफ), 12 नवम्बर 2009*
- नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-664415एन), 16 नवम्बर 2009*
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 23 जून 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार नेमी चंद खाती (जेसी-664539एच), 09 नवम्बर 2009*
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार नरेन्द्र कुमार (जेसी-664594वाई), 15 नवम्बर 2009*
- नायब सूबेदार मुकेश्वर महतो (जेसी-664545डब्ल्यू), 09 नवम्बर 2009*
- नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जेसी-664615के), 15 अक्टूबर 2009*
- नायब सूबेदार गुनेन्द्र नाथ (जेसी-664476एल), 28 अक्टूबर 2009*
- नायब सूबेदार मौ. अफसर अली सरदार (जेसी-664595एफ), 27 अक्टूबर 2009*
- नायब सूबेदार रूप चंद्र (जेसी-664655एल), 16 नवम्बर 2009*
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार बिंदेश्वर सिंह (जेसी-664330एक्स), 15 अक्टूबर 2009*
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 30 अगस्त 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार शैलेन्द्र सिंह (जेसी-664618एक्स), 17 नवम्बर 2009*
- नायब सूबेदार मनोहर लाल (जेसी-664656एन), 12 नवम्बर 2009*
- नायब सूबेदार मौ. मियाराज सरदार (जेसी-664624एल), 12 नवम्बर 2009*
- नायब सूबेदार सुबिष्ट यादव (जेसी-664626डब्ल्यू), 12 नवम्बर 2009*
- नायब सूबेदार राम पाल (जेसी-664658वाई), 28 नवम्बर 2009*
- नायब सूबेदार तरकेश्वर पांडेय (जेसी-664631एफ), 24 नवम्बर 2009*
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार ब्रिज बिहारी सिंह (जेसी-664661वाई), 06 नवम्बर 2009*
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार सिंह (जेसी-664641एल), 09 नवम्बर 2009*
- नायब सूबेदार मौ अब्दुल लतिफ (जेसी-664667ए), 10 नवम्बर 2009*
- नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-664664एम), 10 नवम्बर 2009*
- नायब सूबेदार धर्म राज राम (जेसी-664663के), 16 नवम्बर 2009*
- नायब सूबेदार जोसेफ ए (जेसी-664670ए), 03 नवम्बर 2009*
- नायब सूबेदार कैलाश चन्द्र त्रिपाठी (जेसी-664674डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009*
- नायब सूबेदार गोकुल सिंहा रंजीत सिंहा (जेसी-664685एच), 13 नवम्बर 2009*
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राम सेवक मिस्त्री (जेसी-664691डब्ल्यू), 02 दिसम्बर 2009*
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार फूल चंद सैनी (जेसी-664686एल), 01 दिसम्बर 2009*
- नायब सूबेदार किशोर सीएच माझी (जेसी-664703ए), 01 दिसम्बर 2009*
- नायब सूबेदार राम चंद्र डुकीया (जेसी-664690एन), 01 दिसम्बर 2009*
- नायब सूबेदार गोपा कुमार के सी (जेसी-664699एच), 01 दिसम्बर 2009*
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राम कुमार सिंह (जेसी-664019एक्स), 03 दिसम्बर 2009*
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 23 जून 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार प्रबल प्रताप सिंह (जेसी-664544एन), 20 नवम्बर 2009*
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 24 जून 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार भोपाल सिंह बिष्ट (जेसी-664623एच), 13 अक्टूबर 2009*
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार तरलोक प्रसाद (जेसी-664636ए), 30 नवम्बर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पूरन प्रसाद (जेसी-664684ए), 03 नवम्बर 2009 *

नायब सूबेदार राम सुख पाण्डेय (जेसी-664669एल), 12 नवम्बर 2009 *

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-664676एफ), 02 दिसम्बर 2009 *

नायब सूबेदार जी सम्पत (जेसी-664639एन), 17 दिसम्बर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम चंद्र मोहंती (जेसी-664692वाई), 01 दिसम्बर 2009 *

नायब सूबेदार तिल्ला राम गोधारा (जेसी-664693एफ), 01 दिसम्बर 2009 *

नायब सूबेदार मौ रियाजुद्दीन (जेसी-664694के), 01 दिसम्बर 2009 *

नायब सूबेदार पन्ना लाल सिंह (जेसी-664695एम), 01 दिसम्बर 2009 *

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार शर्मा (जेसी-664696पी), 01 दिसम्बर 2009 *

नायब सूबेदार रामायन तिवारी (जेसी-664697एक्स), 01 दिसम्बर 2009 *

नायब सूबेदार बल राम (जेसी-664704एच), 01 दिसम्बर 2009 *

नायब सूबेदार राधा कृष्णन नायर आर (जेसी-664700एन), 01 दिसम्बर 2009 *

नायब सूबेदार सुभाष चंद्र विश्वास (जेसी-664702एक्स), 01 दिसम्बर 2009 *

नायब सूबेदार कंजन सिंह (जेसी-664932एल), 01 दिसम्बर 2009 *

नायब सूबेदार राम बहादुर (जेसी-664708वाई), 01 दिसम्बर 2009 *

नायब सूबेदार उदय नारायण सिंह (जेसी-664814एक्स), 01 दिसम्बर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार महेश कुमार शर्मा (जेसी-664698ए), 03 दिसम्बर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मोहन स्वामी (जेसी-664629के), 01 जनवरी 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हजरत अली (जेसी-664660डब्ल्यू), 22 दिसम्बर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अशोकन ई (जेसी-664701पी), 07 जनवरी 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गुरविन्द्र सिंह (जेसी-664126वाई), 01 जनवरी 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार काले शिलेश किशन (जेसी-664687एन), 01 दिसम्बर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार उपेन्द्र शर्मा (जेसी-664933एन), 01 जनवरी 2010 *

नायब सूबेदार कुलाफ सिंह (जेसी-664816एच), 01 जनवरी 2010 *

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जेसी-664709एफ), 01 जनवरी 2010 *

नायब सूबेदार सोन बीर (जेसी-664875पी), 01 जनवरी 2010 *

नायब सूबेदार अभि राम घोष (जेसी-664710डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार शर्मा (जेसी-664711वाई), 01 जनवरी 2010 *

नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-664712एफ), 01 जनवरी 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम जीत सिंह चंदेल (जेसी-664713के), 15 जनवरी 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बिशन सिंह नेगी (जेसी-664610एल), 12 नवम्बर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 23 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एमटी)

हवलदार सदाशिव भोसले (सं. 15357748एल अब जेसी-667067एच), 21 अक्टूबर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार संजय कुमार सिंह (सं. 13898314डब्ल्यू अब जेसी-667068एल), 19 अक्टूबर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार माखन सिंह (सं. 13896429एल अब जेसी-667069एन), 03 अक्टूबर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार रणधीर सिंह (सं. 13896492ए अब जेसी-667070एच), 17 नवम्बर 2009*

हवलदार बंसी लाल (सं. 13898476एफ अब जेसी-667071एल), 25 नवम्बर 2009*

हवलदार शैख सुभान (सं. 13898725एच अब जेसी-667072एल), 25 नवम्बर 2009*

हवलदार राकेश कुमार (सं. 13898479पी अब जेसी-667073डब्ल्यू), 16 नवम्बर 2009*

हवलदार सुनील कुमार सिंह (सं. 13898491डब्ल्यू अब जेसी-667074वाई), 14 नवम्बर 2009*

हवलदार सोहन लाल (सं. 13898480के अब जेसी-667075एफ), 16 नवम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार धिरूपति आर (सं. 13896058एन अब जेसी-667076के), 16 नवम्बर 2009*

हवलदार राजपूत नरेन्द्र सिंह (सं. 15359424वाई अब जेसी-667077एम), 24 नवम्बर 2009*

हवलदार अकिल खान (सं. 13898150एल अब जेसी-667078पी), 20 नवम्बर 2009*

हवलदार जीवन राम (सं. 13898163एच अब जेसी-667079एक्स), 18 नवम्बर 2009*

हवलदार शिव नारायण (सं. 13896561एल अब जेसी-667080एम), 21 नवम्बर 2009*

हवलदार हरि शंकर (सं. 13898501पी अब जेसी-667081पी), 21 नवम्बर 2009*

हवलदार जगबीर सिंह (सं. 13897828एफ अब जेसी-667082एक्स), 23 नवम्बर 2009*

हवलदार शैक अब्दुल रहिमान (सं. 15352406एन अब जेसी-667083ए), 18 नवम्बर 2009*

हवलदार कुवर सिंह (सं. 13898361एन अब जेसी-667084एच), 21 नवम्बर 2009*

हवलदार सत्य पाल (सं. 13898875एल अब जेसी-667085एल), 18 नवम्बर 2009*

हवलदार रामाश्रय सिंह (सं. 13898493एफ अब जेसी-667086एन), 19 नवम्बर 2009*

हवलदार भूपेन्द्र कुमार सिंह (सं. 13898498ए अब जेसी-667087डब्ल्यू), 24 नवम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार राम नरेश मिश्रा (सं. 13898284के अब जेसी-667088वाई), 27 नवम्बर 2009*

हवलदार युव राज सिंह (सं. 13896192वाई अब जेसी-667089एफ), 28 नवम्बर 2009*

हवलदार कमल चद्र (सं. 15359084एफ अब जेसी-667090डब्ल्यू), 23 नवम्बर 2009*

हवलदार रघुनाथ बिसवाल (सं. 15359664डब्ल्यू अब जेसी-667091वाई), 18 नवम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार तिलक राम (सं. 13898359डब्ल्यू अब जेसी-668016एफ), 14 दिसम्बर 2009*

हवलदार छोटे लाल (सं. 15355227वाई अब जेसी-668015वाई), 30 नवम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 22 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार जवाहर लाल पटेल (सं. 13898580पी अब जेसी-668022पी), 20 नवम्बर 2009*

हवलदार मोहन (सं. 15354291के अब जेसी-668019पी), 01 दिसम्बर 2009*

हवलदार राम दुलारे (सं. 13896319डब्ल्यू अब जेसी-668023एक्स), 01 दिसम्बर 2009*

हवलदार मंगल प्रसाद (सं. 15355646डब्ल्यू अब जेसी-668021एम), 1 दिसम्बर 2009*

हवलदार लाला राम (सं. 13896466वाई अब जेसी-668018एम), 09 दिसम्बर 2009*

हवलदार नागो जगदेव चिमकर (सं. 13887927डब्ल्यू अब जेसी-668017के), 03 दिसम्बर 2009*

हवलदार नारायण लाल (सं. 13895570ए अब जेसी-668020के),
16 दिसम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार दिनेश चन्द्र (सं. 13898073ए अब जेसी-668024ए),
21 दिसम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार जगदीन (सं. 13898195ए अब जेसी-667100पी),
14 दिसम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 13896426ए अब जेसी-667101एक्स),
26 दिसम्बर 2009 *

हवलदार अभिमन्यु सिंह (सं. 15359624पी अब जेसी-667102ए),
07 अक्टूबर 2009 *

हवलदार हरदेव सिंह (सं. 13898534ए अब जेसी-667103एच),
07 अक्टूबर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार बब्बन सिंह (सं. 13895697ए अब जेसी-667104एल),
30 दिसम्बर 2009 *

हवलदार लखन सिंह (सं. 13896112डब्ल्यू अब जेसी-667105एन),
22 नवम्बर 2009 *

हवलदार दुखी राम (सं. 13898514ए अब जेसी-667106डब्ल्यू),
9 दिसम्बर 2009 *

हवलदार अरूण कुमार राय (सं. 13898036ए अब जेसी-
67108एफ), 03 दिसम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार कमल नयन शर्मा (सं. 13898177ए अब जेसी-
7107वाई), 05 दिसम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 19 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार प्रीत भुजंग बाबू राव (सं. 13894604डब्ल्यू अब जेसी-
5886एन), 01 अक्टूबर 2007 *

हवलदार राम सिंह (सं. 13895607डब्ल्यू अब जेसी-665899एल),
अक्टूबर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार रोहीताश कुमार मीणा (सं. 13894549ए अब जेसी-
665887डब्ल्यू), 1 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार भगवान सिंह (सं. 13895180एक्स अब जेसी-665888वाई),
01 जनवरी 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

तोपखाना रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार राजिंदर सिंह (सं. 15117272एक्स अब जेसी-274224वाई,
21 नवम्बर 2009/01 जून 2009 *

हवलदार क्रिशन कुमार मुखिया (सं. 15118590ए अब जेसी-
274225एफ), 25 नवम्बर 2009/01 सितम्बर 2009 *

हवलदार गुरचरन सिंह (सं. 15112807डब्ल्यू अब जेसी-274226के),
16 नवम्बर 2009/01 सितम्बर 2009 *

हवलदार शाहाजी बाजीराव पाटिल (सं. 14498489ए अब
जेसी-274227एम), 05 नवम्बर 2009/23 सितम्बर 2009 *

हवलदार पट्टन महबूब खान (सं. 15112847एक्स अब जेसी-
274228पी), 23 नवम्बर 2009/01 अक्टूबर 2009 *

हवलदार राकेश कुमार (सं. 14395865के अब जेसी-274229एक्स),
27 नवम्बर 2009/14 अक्टूबर 2009 *

हवलदार चौधरी दीपक निम्बा (सं. 15120373डब्ल्यू अब जेसी-
274230एम), 23 नवम्बर 2009/17 अक्टूबर 2009 *

हवलदार शिरके बालासाहेब बापू पी (सं. 15113352एक्स अब
जेसी-274231पी), 16 नवम्बर 2009/17 अक्टूबर 2009 *

हवलदार क्रिशना नंद चौधरी (सं. 14394846एम अब जेसी-
274232एक्स), 02 दिसम्बर 2009/24 अक्टूबर 2009 *

हवलदार राजू नेवार (सं. 15112704एक्स अब जेसी-274233ए),
30 नवम्बर 2009/29 अक्टूबर 2009 *

हवलदार जगमोहन शर्मा (सं. 14401235ए अब जेसी-
274234एच), 23 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009 *

हवलदार वेंकटा नरसिम्हा राव वी (सं. 15121956ए अब
जेसी-274235एल), 20 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009 *

हवलदार जसपाल सिंह (सं. 14400614एम अब जेसी-274236एन),
07 दिसम्बर 2009/11 अगस्त 2009 *

हवलदार अनिल कुमार सिंह (सं. 14409227वाई अब जेसी-
274237डब्ल्यू), 21 दिसम्बर 2009/31 अगस्त 2009 *

हवलदार अशोक कुमार यादव (सं. 14499626एफ अब जेसी-274238वाई), 23 दिसम्बर 2009/18 सितम्बर 2009*

हवलदार कुचाकर वसंत सावंता (सं. 14391449एच अब जेसी-274239एफ), 29 नवम्बर 2009/01 अक्टूबर 2009*

हवलदार विश्वास लक्ष्मन रामचंद्रा (सं. 15109298एक्स अब जेसी-274240डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009/04 अक्टूबर 2009*

हवलदार सुनील कुमार मण्डल (सं. 15119609एन अब जेसी-274241वाई), 04 दिसम्बर 2009/22 अक्टूबर 2009*

हवलदार जानकी रमन आर (सं. 14408303एन अब जेसी-274242एफ), 25 नवम्बर 2009/29 अक्टूबर 2009*

हवलदार कुलविंदर सिंह सेखोन (सं. 15111065पी अब जेसी-274243के), 28 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009*

हवलदार रवी दत्त (सं. 15110787पी अब जेसी-274244एम), 02 दिसम्बर 2009/13 नवम्बर 2009*

हवलदार किरपाल सिंह (सं. 14403696एल अब जेसी-274245पी), 12 दिसम्बर 2009/15 नवम्बर 2009*

हवलदार मुकेश कुमार राय (सं. 15118593एफ अब जेसी-274246एक्स), 22 दिसम्बर 2009/15 नवम्बर 2009*

हवलदार सैख जफरुल्ला (सं. 14395557के अब जेसी-274247ए), 07 दिसम्बर 2009/23 नवम्बर 2009*

हवलदार बसव राज हराली (सं. 14395378के अब जेसी-274248एच), 01 जनवरी 2010

हवलदार नारेंद्र दत्त (सं. 14395270एम अब जेसी-274249एल), 01 जनवरी 2010

हवलदार उमेश कुमार शाक्य (सं. 13978709एल अब जेसी-274250ए), 01 जनवरी 2010

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 14396442एच अब जेसी-274251एच), 01 जनवरी 2010

हवलदार आर अन्बालगन (सं. 15103075के अब जेसी-274252एल), 12 जून 2009/01 अप्रैल 2009*

हवलदार अन्नम नानांगे (सं. 15118439एच अब जेसी-274253एन), 25 नवम्बर 2009/25 मई 2009*

हवलदार कनवार सिंह (सं. 15108199एच अब जेसी-274254डब्ल्यू), 29 नवम्बर 2009/01 सितम्बर 2009*

हवलदार सुबाश सिंह (सं. 15109136एम अब जेसी-274255वाई), 21 नवम्बर 2009/24 सितम्बर 2009*

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

ए वी बागुर
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एमजीओ) ईएमई कार्मिक

सं. 454, दिनांक 15 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैंक में

प्रकाश सिंह (सं. 14626022के अब जेसी-764411एम), 01 दिसम्बर 2009

मस्तान सिंह (सं. 14626795के अब जेसी-764412पी), 07 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

रामाकृष्णा मानिक रेड्डी (सं. 14626786एच अब जेसी-764413एक्स), 01 दिसम्बर 2009

एल लारेन्स (सं. 14626988के अब जेसी-764414ए), 01 दिसम्बर 2009

अरुण कुमार परीडा (सं. 14626906डब्ल्यू अब जेसी-764415एच), 01 दिसम्बर 2009

पंचानन बाग (सं. 14627054वाई अब जेसी-764416एल), 01 दिसम्बर 2009

नूक राजू अमरापिनी (सं. 14627373एल अब जेसी-764417एन), 01 जनवरी 2010/01 दिसम्बर 2009*

दीपक सिंह रावत (सं. 14627375डब्ल्यू अब जेसी-764418डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

ए श्रीधर (सं. 14627416पी अब जेसी-764419वाई), 01 दिसम्बर 2009

रविन्द्र कुमार मिश्रा (सं. 14628542एन अब जेसी-764420एन), 01 दिसम्बर 2009

अरविन्द कुमार सिंह (सं. 14628553ए अब जेसी-764421डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

सत्री बाबूमोल्ली (सं. 14628670एल अब जेसी-764422वाई), 01 दिसम्बर 2009

सिकन्दर सिंह (सं. 14629413ए अब जेसी-764423एफ), 01 दिसम्बर 2009

जसप्रीत सिंह (सं. 14629488एक्स अब जेसी-764424के), 23 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

प्रसाद एच एस (सं. 14629528एन अब जेसी-764425एम), 01 दिसम्बर 2009

चिकले रामचन्द्र एस (सं. 14620884ए अब जेसी-764426पी), 01 दिसम्बर 2009

अनिल कुमार (सं. 14631809एच अब जेसी-764427एक्स), 01 दिसम्बर 2009

वी वेलराज (सं. 14631893एन अब जेसी-764428ए), 01 दिसम्बर 2009

कौलाश चन्द्र (सं. 14603906के अब जेसी-764429एच), 01 दिसम्बर 2009

गिरधारी यादव (सं. 14618506पी अब जेसी-764430एक्स), 01 दिसम्बर 2009

राजेश कुमार (सं. 14625966वाई अब जेसी-764431ए), 01 दिसम्बर 2009

कृष्णा मूर्ध्नि (सं. 14626731वाई अब जेसी-764432एच), 01 दिसम्बर 2009

सुमेश कुमार एस (सं. 14626834एक्स अब जेसी-764433एल), 01 दिसम्बर 2009

सत्यवीर सिंह (सं. 14626826वाई अब जेसी-764434एन), 10 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

अयान समन्ता (सं. 14627032ए अब जेसी-764435डब्ल्यू), 31 जनवरी 2010/01 दिसम्बर 2009*

गुलशेर अली (सं. 14626930एम अब जेसी-764436वाई), 01 दिसम्बर 2009

दर्शन सिंह (सं. 14627099वाई अब जेसी-764437एफ), 01 दिसम्बर 2009

सनमुगम एम (सं. 14627856एच अब जेसी-764438के), 01 दिसम्बर 2009

गनेश घोष (सं. 14628464एफ अब जेसी-764439एम), 12 जनवरी 2010/01 दिसम्बर 2009*

संकरन कुट्टी एस (सं. 14628488एल अब जेसी-764440एफ), 01 दिसम्बर 2009

कमल थप्पलीयाल (सं. 14628568एच अब जेसी-764441के), 01 दिसम्बर 2009

काटे संदीप श्यामराव (सं. 14628516एम अब जेसी-764442एम), 01 दिसम्बर 2009

विनय कुमार (सं. 14628572एल अब जेसी-764443पी), 04 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

सत्य प्रकाश मिश्रा (सं. 14628575वाई अब जेसी-764444एक्स), 01 दिसम्बर 2009

महावीर सिंह (सं. 14628580के अब जेसी-764445ए), 01 दिसम्बर 2009

संजीव कुमार (सं. 14629496डब्ल्यू अब जेसी-764446एच), 01 दिसम्बर 2009

विजय कुमार के एन (सं. 14629526एच अब जेसी-764447एल), 08 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

अर्चिता डे (सं. 14629695के अब जेसी-764448एन), 03 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009

अरुण चन्द्रा (सं. 14629704ए अब जेसी-764449डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

शंकर टी (सं. 14630110एक्स अब जेसी-764450एल), 01 दिसम्बर 2009

चिलुभुरी सत्या नागा राजू (सं. 14630914एम अब जेसी-764451एन), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (जीसीई) के रैंक में

हरीश चन्द (सं. 14616627एक्स अब जेसी-764452डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

अजय मिनहास (सं. 14617254एफ अब जेसी-764453वाई), 01 दिसम्बर 2009

पाटील श्रीनिक दादा (सं. 14618374एम अब जेसी-764454एफ), 01 दिसम्बर 2009

नवाघने देवाराम लक्ष्मण (सं. 14618885डब्ल्यू अब जेसी-764455के), 01 दिसम्बर 2009

एस श्रीनिवासुलू (सं. 14619759डब्ल्यू अब जेसी-764456एम), 02 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

लुरेन्द्र कुमार रहानादाले (सं. 14619389एफ अब जेसी-764457पी), 01 दिसम्बर 2009

आर श्रीनिवासा (सं. 14620495एम अब जेसी-764458एक्स), 09 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

अमर कुमार जेना (सं. 14620662एक्स अब जेसी-764459ए), 01 दिसम्बर 2009

सुप्रोवत घोष (सं. 14620690के अब जेसी-764460पी), 01 दिसम्बर 2009

साहेब राम (सं. 14621148ए अब जेसी-764461एक्स), 01 दिसम्बर 2009

साधु राम (सं. 14621168एन अब जेसी-764462ए), 15 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

दलवी सम्भाजी बाबाजी (सं. 14621505एक्स अब जेसी-764463एच), 01 दिसम्बर 2009

अरोते दीनकर बालाभाऊ (सं. 14624394डब्ल्यू अब जेसी-764464एल), 01 दिसम्बर 2009

पिनाले विजय गोपीचन्द (सं. 14624404पी अब जेसी-764465एन), 01 दिसम्बर 2009

पंकज कुमार यादव (सं. 14624500के अब जेसी-764466डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2009

नरेन्द्र यादव (सं. 14624515एम अब जेसी-764467वाई),
01 दिसम्बर 2009

सुरेश के (सं. 14617188के अब जेसी-764468एफ), 01 जनवरी
2010

सुरेन्द्र मोहन (सं. 14617740वाई अब जेसी-764469के), 01 जनवरी
2010

ललित नन्द कुमार ज़िर्णे (सं. 14619423डब्ल्यू अब जेसी-
764470वाई), 01 जनवरी 2010

पाटील भास्कर शिवाजी (सं. 14619435एल अब जेसी-
764471एफ), 01 जनवरी 2010

जीवा सुकुमारन नायर (सं. 14619450ए अब जेसी-764472के),
01 जनवरी 2010

सतीश कुमार (सं. 14621215ए अब जेसी-764473एम), 04 जनवरी
2010/01 जनवरी 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कॉम्प्यूनिकेशन के रैंक में
पोलिसेटिव सूर्या राव (सं. 14621181एक्स अब जेसी-764474पी),
01 दिसम्बर 2009

जवकाला गोविन्द राव (सं. 14621182ए अब जेसी-764475एक्स),
01 दिसम्बर 2009

वेन्कटराव राऊथकर (सं. 14621427एल अब जेसी-764476ए),
01 दिसम्बर 2009

बिजय कुमार पटेल (सं. 14621475एल अब जेसी-764477एच),
01 दिसम्बर 2009

दान सिंह मेहता (सं. 14621935एफ अब जेसी-764478एल),
01 दिसम्बर 2009

विनोद कुमार सिंह (सं. 14621943ए अब जेसी-764479एन),
01 दिसम्बर 2009

राजेश कुमार वी (सं. 14622482एन अब जेसी-764480एच),
01 दिसम्बर 2009

भरत सिंह (सं. 14622949एन अब जेसी-764481एल), 01 दिसम्बर
2009

सान्तनु पाल (सं. 14623481एक्स अब जेसी-764482एन),
04 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

वैभव विश्वनाथ पार्ते (सं. 14624407एच अब जेसी-764483डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2009

सुरेश कुमार एस (सं. 14625839के अब जेसी-764484वाई),
01 दिसम्बर 2009

फूल चन्द धिन्वा (सं. 14625858पी अब जेसी-764485एफ),
11 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

हिमाद्रि प्रहराज (सं. 14617060वाई अब जेसी-764486के),
02 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

राज कुमार यागिक (सं. 14619027ए अब जेसी-764487एम),
01 दिसम्बर 2009

अजय कुमार राय (सं. 14619030ए अब जेसी-764488पी),
01 दिसम्बर 2009

होशियार सिंह (सं. 14619031एच अब जेसी-764489एक्स),
01 दिसम्बर 2009

त्रिस्टू दास के (सं. 14620493एफ अब जेसी-7644990एम),
01 दिसम्बर 2009

अशोक कुमार (सं. 14621934वाई अब जेसी-764491पी),
01 दिसम्बर 2009

के ईशुमलाय (सं. 14621969पी अब जेसी-764492एक्स),
21 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

चन्द्रशेखर मन्डवि (सं. 14622043एच अब जेसी-764493ए),
19 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

महेन्द्र सिंह (सं. 14623668के अब जेसी-764494एच), 01 दिसम्बर
2009

आर कन्दासामी (सं. 14623675ए अब जेसी-764495एल),
01 दिसम्बर 2009

महेश कुमार (सं. 14623696डब्ल्यू अब जेसी-764496एन),
19 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

पाटील मनोज खप्पू (सं. 14624397के अब जेसी-764497डब्ल्यू),
11 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

पाटील नरेश रघुनाथ (सं. 14624403एम अब जेसी-764498वाई),
01 दिसम्बर 2009

पुरुषोत्तम (सं. 14624975एन अब जेसी-764499एफ), 12 दिसम्बर
2009/01 दिसम्बर 2009*

बिद्या नाथ सिंह (सं. 14598049एच अब जेसी-764500एल),
01 दिसम्बर 2009

दन्जीति त्रिमुर्थूलु (सं. 14613145एक्स अब जेसी-764501एन),
01 दिसम्बर 2009

मनोज कुमार सिंह (सं. 14614822डब्ल्यू अब जेसी-764502डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2009

राजा तनवर (सं. 14615165के अब जेसी-764503वाई), 01 दिसम्बर
2009

कौशलेन्द्र कुमार सिंह (सं. 14616990एन अब जेसी-764504एफ),
01 दिसम्बर 2009

- रणधीर सिंह (सं. 14617513वाई अब जेसी-764505के), 01 दिसम्बर 2009
- एम डी ईकरामुल हक (सं. 14617554एच अब जेसी-764506एम), 01 जनवरी 2010/01 दिसम्बर 2009*
- हवलदार से नायब सूबेदार मशिनिस्ट के रैंक में
- शेख रेयासत अली (सं. 14578258वाई अब जेसी-764507पी), 23 नवम्बर 2009/25 अक्टूबर 2009*
- मनिराज सिंह (सं. 14581808एफ अब जेसी-764508एक्स), 18 नवम्बर 2009/25 अक्टूबर 2009*
- हवलदार से नायब सूबेदार अपोलिस्टर के रैंक में
- उदय सिंह तोमर (सं. 14568519एन अब जेसी-764509ए), 01 जनवरी 2010
- हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में
- ओन्कार नाथ मिश्रा (सं. 14586628एच अब जेसी-764632वाई), 25 जनवरी 2010/03 जनवरी 2010*
- रघबीर लाल (सं. 14586981पी अब जेसी-764634के), 05 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010*
- विश्राम सिंह (सं. 14588134एक्स अब जेसी-764640एक्स), 01 फरवरी 2010
- राजेश कुमार (सं. 14588142डब्ल्यू अब जेसी-764643एल), 02 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- हरी नारायण सिंह (सं. 14584379डब्ल्यू अब जेसी-764662एल), 11 फरवरी 2010/31 जनवरी 2010*
- *(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)
- हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में
- अमर सिंह (सं. 14591819एफ अब जेसी-764573एक्स), 01 जनवरी 2010
- मूर्ती नागरची (सं. 14592195एम अब जेसी-764574ए), 01 जनवरी 2010
- चवारे सुरेश वसन्त (सं. 14592211वाई अब जेसी-764575एच), 1 जनवरी 2010
- हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो इलेक्ट बी व्हीकल के रैंक में
- तुलसीधरन पिल्लै आर (सं. 14561848एफ अब जेसी-764577एन), 4 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*
- सन्तन पण्डेय (सं. 14562314एच अब जेसी-764578डब्ल्यू), 02 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*
- मिथलेश कुमार (सं. 14563518एफ अब जेसी-764579वाई), दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*
- राम प्रवेश सिंह (सं. 14563520वाई अब जेसी-764580एन), 17 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*
- फूल कुमार झा (सं. 14563522के अब जेसी-764581डब्ल्यू), 12 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*
- दिना नाथ सिंह (सं. 14563613एन अब जेसी-764582वाई), 04 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*
- हवलदार से नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में
- प्रवीन कुमार चौधरी (सं. 14572831एन अब जेसी-764583एफ), 04 अक्टूबर 2009
- हवलदार से नायब सूबेदार टेक आर के रैंक में
- अशोक प्रताप सिंह (सं. 14573895एल अब जेसी-764584के), 01 जनवरी 2010/08 नवम्बर 2009*
- हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्प्यूनिकेशन के रैंक में
- अर्जुन सिंह (सं. 14621945एल अब जेसी-764585एम), 24 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*
- हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक नेट वर्किंग के रैंक में
- यशपाल सिंह नेगी (सं. 14617738एफ अब जेसी-764586पी), 01 फरवरी 2010
- लोका नन्द (सं. 14614737एन अब जेसी-764557ए), 01 दिसम्बर 2009
- हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक जी सी ई के रैंक में
- जगताप विकास (सं. 14621509एन अब जेसी-764587एक्स), 31 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*
- सेंथिल कुमार एम (सं. 14620573वाई अब जेसी-764588ए), 01 जनवरी 2010
- योगेन्द्र कुमार (सं. 14621201ए अब जेसी-764589एच), 03 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*
- हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में
- गुलाम नबी खान (सं. 14604916ए अब जेसी-764590एक्स), 19 दिसम्बर 2009/06 दिसम्बर 2009*
- बेलोशे भरत बाबू राव (सं. 14603130एफ अब जेसी-764591ए), 29 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*
- रविन्द्र चन्द्र (सं. 14613174एम अब जेसी-764592एच), 01 जनवरी 2010
- शियोताज सिंह (सं. 14613528के अब जेसी-764593एल), 01 जनवरी 2010
- ललित कुमार (सं. 14613530एफ अब जेसी-764594एन), 01 जनवरी 2010

परवीन कुमार (सं.14613549ए अब जेसी-764595डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010

मितू लाल कथक (सं.14613550पी अब जेसी-764596वाई), 01 जनवरी 2010

भैरू सिंह (सं.14613553एच अब जेसी-764597एफ), 01 जनवरी 2010

राम निवास (सं.14613544एफ अब जेसी-764598के), 06 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*

काजल कृष्ण मजुमदार (सं.14613564पी अब जेसी-764599एम), 01 जनवरी 2010

सत्यानारायण सिंह (सं.14613676पी अब जेसी-764600डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010

बलवन्त सिंह (सं.14613556डब्ल्यू अब जेसी-764602एफ), 01 जनवरी 2010

निहाल सिंह (सं.14584568ए अब जेसी-764603के), 02 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*

अमलेन्दू डे (सं.14612914के अब जेसी-764604एम), 01 जनवरी 2010

सोबन सिंह राठौर (सं. 14583034एच अब जेसी-764605पी), 07 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*

देबदास राय (सं. 14613666एल अब जेसी-764606एक्स), 01 जनवरी 2010

कुलदीप सिंह (सं. 14613833डब्ल्यू अब जेसी-764607ए), 01 जनवरी 2010

के एम राजेन्द्रन (सं. 14613835एफ अब जेसी-764608एच), 01 जनवरी 2010

कुरारिया (सं. 14604882एक्स अब जेसी-764609एल), 01 जनवरी 2010

राधे श्याम भक्ता (सं. 14605007एफ अब जेसी-764610ए), 01 जनवरी 2010

अशोक कुमार बराल (सं. 14601844डब्ल्यू अब जेसी-764611एच), 01 जनवरी 2010

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक ए व्हीकल के रैंक में

रघु नन्दन (सं. 14565122डब्ल्यू अब जेसी-764612एल), 01 जनवरी 2010/01 दिसम्बर 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक इंजीनियर इक्यूपमेन्ट के रैंक में

महेन्द्र नाथ (सं. 14564599वाई अब जेसी-764613एन), 30 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

मोती चन्द (सं. 14564611पी अब जेसी-764614डब्ल्यू), 30 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राईवर रिकवरी के रैंक में

राम किशोर सिंह (सं. 14563122एक्स अब जेसी-764615वाई), 01 दिसम्बर 2009

सरदार सिंह (सं. 14563124एच अब जेसी-764616एफ), 02 जनवरी 2010/01 दिसम्बर 2009*

गोपी रामन (सं. 14563146एफ अब जेसी-764617के), 29 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार म्यूजिशियन के रैंक में

संजय कुमार राय (सं. 14598768एफ अब जेसी-763703एच), 24 दिसम्बर 2009/25 अक्टूबर 2009*

*(पिछली तारीख से बरीयता दी जाती है)

एन के कश्मीरा
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 455, दिनांक 16 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेवा

सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर व पदोन्नति दिनांक

बि एच एम राजेश कुमार (सं. 2681633पी अब जेसी-826228पी), 04 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010*

बि एच एम के सेलवम (सं. 2592204वाई अब जेसी-826229एक्स), 01 फरवरी 2010

बि एच एम कमल सिंह (सं. 2989206एम अब जेसी-826230एम), 01 मार्च 2010

*(वरिष्ठता दिनांक)

प्रोत पाल सिंह
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 456, दिनांक 16 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

क्वचित कोर

स्थायी नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार ओंकार सिंह (सं. 1089670के अब जेसी-244127एम), 08 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

- दफादार सुनील कुमार (सं. 1088275के अब जेसी-244128पी),
08 फरवरी 2010*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 21 जुलाई 2009 से दी जाती है)
- दफादार मोहिन्दर सिंह (सं. 15461637ए अब जेसी-244079एक्स),
23 जनवरी 2010*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)
- दफादार राजेन्द्र सिंह (सं. 1087434के अब जेसी-244117एच),
28 जनवरी 2010*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार गणपत राम (सं. 1088325के अब जेसी-244118एल),
28 जनवरी 2010*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)
- दफादार मृतुनजय कुमार (सं. 1098947वाई अब जेसी-244119एन),
28 जनवरी 2010*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- दफादार सिवा कुमार ए (सं. 15461198ए अब जेसी-244099एल),
06 फरवरी 2010*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- दफादार आर स्टीफन (सं. 15461199एच अब जेसी-244100पी),
06 फरवरी 2010*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- दफादार राम प्रकाश (सं. 15463699वाई अब जेसी-244129एक्स),
08 फरवरी 2010*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- दफादार किशन सिंह (सं. 1089465एच अब जेसी-244122एन),
01 फरवरी 2010
- दफादार राजबीर सिंह (सं. 1089934ए अब जेसी-244108एफ),
01 फरवरी 2010*
- दफादार राज सिंह (सं. 1099213के अब जेसी-244121एल), 09 फरवरी
2010
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)
- दफादार हरी सिंह (सं. 1099550वाई अब जेसी-244078पी),
01 फरवरी 2010
- दफादार बाबा लाल मुलतानी (सं. 15461249एच अब
जेसी-244120एच), 01 फरवरी 2010
- दफादार गोपाल सिंह (सं. 15462245वाई अब जेसी-244179एच),
12 मार्च 2010*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार हरेन्द्र सिंह (सं. 1088240एन अब जेसी-244161एम),
03 मार्च 2010*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)
- दफादार सकतू राम (सं. 1089239एल अब जेसी-244110वाई),
21 जनवरी 2010*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 09 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)
- दफादार सोमनाथ (सं. 1099706एल अब जेसी-244191के), 16 मार्च
2010*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- दफादार लौमन पी ए (सं. 1089962एम अब जेसी-244150ए),
22 फरवरी 2010*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)
- दफादार तेजीन्द्र सिंह (सं. 15461757वाई अब जेसी-244113एम),
24 फरवरी 2010*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)
- दफादार संतोष कुमार सिंह (सं. 15462538के अब जेसी-244163एक्स),
03 मार्च 2010*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)
- दफादार कुलवंत सिंह (सं. 1084071ए अब जेसी-244182एच),
08 मार्च 2010*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)
- दफादार जागीर सिंह (सं. 1089910डब्ल्यू अब जेसी-244165एच),
02 मार्च 2010*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार कर्ण सिंह राठोड (सं. 1098729ए अब जेसी-244168डब्ल्यू),
08 मार्च 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार मंजीत सिंह (सं. 15461994एच अब जेसी-244164ए),
02 मार्च 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार कबी राज सिंह अधिकारी (सं. 1088066एम अब जेसी-244184एन), 12 मार्च 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार गिरधारी सिंह ईन्डा (सं. 15463983पी अब जेसी-244139एफ), 20 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार चन्द्र भुषन तिवारी (सं. 1089477एक्स अब जेसी-244140डब्ल्यू), 22 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार विजय बहादुर सिंह (सं. 15461728के अब जेसी-244067एच), 23 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार दिलीप सिंह (सं. 1082715डब्ल्यू अब जेसी-244143के),
02 मार्च 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार शिंदे नाना साहेब यशवंत (सं. 1089265एम अब जेसी-244105एन), 18 जनवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार नरपत सिंह (सं. 15461024ए अब जेसी-244145पी),
25 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार राम पाल (सं. 15461528एन अब जेसी-244146एक्स),
25 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार कंवर सेन (सं. 15461952डब्ल्यू अब जेसी-244147ए),
25 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार पलविन्द्र सिंह (सं. 15464178एक्स अब जेसी-244141वाई),
26 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार गगन बिहारी नायक (सं. 15461441एम अब जेसी-244148एच), 24 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार मोहम्मद अब्बास (सं. 15463663ए अब जेसी-244116ए),
15 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार आनंद सिंह (सं. 1098892ए अब जेसी-244155वाई),
02 मार्च 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार अनिल कुमार तिवारी (सं. 15461010ए अब जेसी-244123डब्ल्यू), 03 मार्च 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

जे राय चौधरी
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 457, दिनांक 16 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 30 दिसम्बर 2009 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना आनुदेश 74/76 यथासंशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

शिवानी (एमएस-15451एक्स), (एमआर-08940ए), एएमसी, 22 जनवरी 2007 को वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 22 जनवरी 2004 से हो जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडीसिन के

लिए दी गई 36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवानिवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 मई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

मनीष कुमार (एमएस-15245एन) (एमआर-08939एल), एएमसी, 21 अप्रैल 2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 21 अप्रैल 2003 से हो जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (पेडीयाट्रिक) के लिए दी गई 36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवानिवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

विमल एन (एमएस-15209एच) (एमआर-08935पी), एएमसी, 20 जनवरी 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 फरवरी 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक

ससेचिसे (मा सं)

वित्त प्रभाग

सं. 458, दिनांक 16 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में श्रीमती इंदू लिबरहान, सचिव (रक्षा वित्त) को उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होन पर दिनांक 31 मई 2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

आर सी मीणा
सहायक वित्तीय सलाहकार
(स्थापना)

सेना शाखा

सं. 459, दिनांक 19 जुलाई 2010-- राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों से सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्त

कर्नल एस के पारीक (टीए-41708), इन्फैन्ट्री, 31 मार्च 2010(एएन)

लेफ्टि कर्नल आर एस यादव (टीए-41949), इंजीनियर (टीए), 31 दिसम्बर 2008(एएन)

लेफ्टि कर्नल सुरेश कुमार (टीए-41796), इंजीनियर (टीए), 31 दिसम्बर 2008(एएन)

जय राज
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 460, दिनांक 19 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को उसके नाम के सामने दी गई तिथि से उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में स्थानान्तरित करते हैं। इस शाखा में उनकी समायोजित वरिष्ठता उसी प्रकार मानी जाएगी मानो उसे मूल कमीशन ही प्रशासनिक शाखा में प्राप्त हुआ हो। अफसर को वायुसेना सूची में फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट एस पी सुनील (29087) प्रशासनिक व फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट बी एस राठौर (29254) प्रशासनिक के मध्य रखा जाएगा। अफसर को 15 जून 2009 से स्थायी निम्न उड़ान चिकित्सा श्रेणी में पाये जाने की वजह से उसी दिन से उड़ान भत्ते का हकदार नहीं होगा। वा से सु/21901/29053/पी ओ-3(ई) दिनांक 14 अक्टूबर 2009 द्वारा।

फ्लाईंग अफसर एच सिंह (29053) उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में दिनांक 15 जून 2009 से।

एस सचदेवा
विंग कमांडर
जेडीपीओ-3(ई)

सेना शाखा

शुद्धि-पत्र

सं. 461, दिनांक 19 जुलाई 2010--संख्या 36, दिनांक 05 सितम्बर-11 सितम्बर 2009, भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 07 जुलाई 2009 (पृष्ठ 1470) (भाग-I खण्ड-IV) में शीर्षक "नियमित सेवा-स्थायी कमीशन" के उपशीर्षक 'मेजर जनरल के मूल रैंक' के अन्तर्गत ब्रिगेडियर ए के बक्शी, एसएम, वीएसएम, बिहार के व्यक्तिक संख्या में शुद्धि :--

के लिए : ब्रिगेडियर ए के बक्शी, एसएम, वीएसएम (आईसी-33997), बिहार, 21 नवम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 2007 अक्टूबर से दी जायेगी।

पढ़ें : ब्रिगेडियर ए के बक्शी, एसएम, वीएसएम (आईसी-30997), बिहार, 21 नवम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।

एन के फूकन
निदेशक/एमएस (एक्स)

सेना शाखा

सं. 462, दिनांक 19 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारियों के सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सर्जन कमान्डर के पद पर

शुद्धि-पत्र

भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 जुलाई 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में श्रीनिवास पटनायक (एमएस-12639एफ) (एमआर-07156एफ), एएमसी, के नाम

के स्थान पर

यह पढ़ा जाए

श्रीनिवास पटनायक

श्रीनिवास पटनायक

सर्जन लेफ्टिनेन्ट कमान्डर के पद पर

शुद्धि-पत्र

भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 14 अगस्त 1999 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में श्रीनिवास पटनायक (एमएस-12639एफ) (एमआर-07156एफ), एएमसी, के नाम

के स्थान पर

यह पढ़ा जाए

श्रीनिवास पटनायक

श्रीनिवास पटनायक

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 05 दिसम्बर 2008 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथासंशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सर्जन लेफ्टिनेन्ट के पद पर

शुद्धि-पत्र

भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 15 मई 1999 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में श्रीनिवास पटनायक (एमएस-12639एफ) (एमआर-07156एफ), एएमसी, के नाम

के स्थान पर

यह पढ़ा जाए

श्रीनिवास पटनायक

श्रीनिवास पटनायक

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक
ससेचिसे (मा सं)

MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 28th August 2010

No. 443, dated 13th July 2010—The President is pleased to appoint Smt Nita Kapoor, IDAS (1973), as Secretary (Defence Finance) in the Ministry of Defence with effect from the forenoon of 01.06.2010.

T JOSEPH
Dy Financial Adviser (Estt/MO)

INTEGRATED HEADQUARTERS (NAVY)

(DTE OF ADMIN/CIV SECTION)

No. 444, dated 13th July 2010—The President is pleased to extend the appointment of the following officers of AFHQ Civil Service as Dy Director (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of PB-3 (Rs. 15600—39100/-) with GP Rs. 6600/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for the period 14.08.2009 to 31.12.2009 or till regular incumbent becomes available or till such time the officer retires, whichever is earlier :—

Shri AK Singhal
Shri Amit Kumar
Shri BP Sharma
Shri DC Tyagi
Shri DV Singh
Shri DS Arora
Shri Jagdish Singh
Shri KC Bhardwaj
Shri KD Mitra
Smt KM Hemlatha
Shri MK Jha
Shri MS Salil
Shri MA Khan
Shri Man Singh
Shri Milind Honwad
Shri PNS Yadav
Shri PP Taneja
Shri Pradeep Kumar
Shri Pramod Kumar
Shri RK Sahrawat
Shri RM Shukla
Shri RK Shukla
Shri S Hemant Kumar
Shri Sudhir Kumar

Shri Sunnana Bharti

Shri US Latwal

2. These appointments are made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

A K LAROIYA
Dy CAO(A)

ARMY BRANCH

No. 445, dated 13th July 2010—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Flt Lt (on probation)

Flt Lt Vasudha Ahuja (MS-15568W), AMC, 06 Sep 2007
Flt Lt Vikas Kumar Soral (MS-15823X) (AF-29431), DOC, 25 Apr 2008

With seniority for pay and promotion from 25 Oct 2007. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Flt Lt Jasbir Dalal (MS-16050P) (AF-30050A), DOC, 26 Feb 2009

With seniority for pay and promotion from 26 Aug 2008. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

(To be Capt on probation)

Capt Suman Dhankher (MS-16091Y), AMC, 27 Jul 2009
Capt Roowendra Kumar Bansod (MS-16131P), AMC, 28 Jul 2009

Capt Rakesh Holla A (MS-16144M), AMC, 28 Jul 2009
Capt Muqtadir Malik (MS-16145P), AMC, 28 Jul 2009
Capt Harendra Gupta (MS-16148H), AMC, 29 Jul 2009
Capt Guruprakash KV (MS-16151H), AMC, 30 Jul 2009
Capt Rakhi Singh (MS-16172Y), AMC, 11 Aug 2009
Capt Raut Vishal Nandkumar (MS-16183L), AMC, 11 Aug 2009
Capt Jyoti Yadav (MS-16192M), AMC, 11 Aug 2009
Capt Anurag Kamal Mishra (MS-16210K), AMC, 11 Aug 2009

Capt Patil Navneet Rameshbhai (MS-16214A), AMC,
11 Aug 2009

Capt Laxmi Dukariya (MS-16219Y), AMC, 11 Aug 2009

Capt Kamal Kishore (MS-16237F), AMC, 13 Aug 2009

Capt Sourabh Kumar (MS-16253Y), AMC, 19 Aug 2009

Capt Ranganath Reddy PR (MS-16260P), AMC, 20 Aug
2009

Capt Rohan J (MS-15834K), DOC, 22 May 2008

With seniority for pay and promotion from 22 Nov 2007.
This includes 06 months antedate for hospital appointment
which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publishedn in so far as
it relates to the above named officer is hereby cancelled).

The President is pleased to make the following
appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as
amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt (on probation)

Lt Abhinav Shrivastava (MS-15966X), AMC, 05 Mar
2009

Lt Sankar J (MS-15971H), AMC, 05 Mar 2009

Lt Rohit Shivhare (MS-15982P), AMC, 05 Mar 2009

Lt Satyanjaya Sahoo (MS-15965P), AMC, 05 Mar 2009

Lt Pravendra Singh (MS-15967A), AMC, 05 Mar 2009

Lt Mayank Kumar (MS-15984A), AMC, 05 Mar 2009

The President is pleased to make the following
appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as
amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Surg Lt

Surg Lt Gaichangsui Lawrence Kamei (MS-15609P)
(75968B), DOC, 06 Sep 2007

With seniority for pay and promotion from 06 Mar 2007.
This includes 06 months antedate for hospital appointment
which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as
it relates to the above named officer is hereby cancelled).

The President is pleased to make the following
appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as
amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Surg Sub Lt (on probation)

Surg Sub Lt Shyam Kumar S (MS-15960W), AMC,
05 Mar 2009

Surg Sub Lt Hari JP (MS-15961Y), AMC, 05 Mar 2009

Surg Sub Lt Renish R (MS-15962F), AMC, 05 Mar 2009

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 446, dated 13th July 2010—The President is pleased
to confirm the undermentioned AMC/PC (Non Tech) officer
consequent on completion of the probationary period :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Capt Surrender Singh (NTR-16788M), 15 Feb 2008

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 447, Dated 14th July 2010—The President is pleased
to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be Substantive General)

Lt Gen VK Singh, PVSM, AVSM, YSM, ADC (IC-24173),
Rajput, 01 Apr 2010

ARMY HEADQUARTERS

To be Chief of Army Staff

General VK Singh, PVSM, AVSM, YSM, ADC (IC-24173),
Rajput, 01 Apr 2010

N K PHUKAN
Dir/MS(X)

ARMY BRANCH

No. 448, dated 14th July 2010—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Surg Capt (& Equivalent) to be Surg CMDE (&
Equivalent)

J D'Souza (MR-03916A)(75237), 15 Jan 2009

T Nagaraja (MR-03974K)(75461), 21 Jan 2009 with notional
seniority without effect on pay & pension from 16 Jan 2009

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)

No. 449, dated 14th July 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

(IC No.), Name, Arm

(IC-46754), Bhaskar Banerjee, Eme

(IC-49068), Vivek Verma, Arty

—16 Dec 2004

JASWANT SINGH

Jt Dir

MS-8C

No. 450, dated 14th July 2010—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Major to be Lt Col

Rajeev Deo (MR-08497X), AMC, 23 Dec 2009

Sandeep Dhingra (MR-07079W), AMC, 20 Jan 2010

SK Saharan (MR-07100N), AMC, 18 Feb 2010

Ekta Pagaria (MR-07946P), AMC, 01 Feb 2010

Lt Col Rajeev Kumar (MR-07935H), AMC, 29 Jul 2009

Lt Col RK Joshi (MR-07087P), AMC, 20 Jan 2010

Lt Col Sanjay Kumar Dutt (MR-07110X), AMC, 20 Jan 2010

Lt Col Aman Preet (MR-07114N), AMC, 20 Jan 2010

Lt Col Ganeshmurthy Ramamurthy Vashista (MR-07832K), AMC, 04 Feb 2010

Lt Col Mohan Bhikaji Mahale (MR-07836A), AMC, 03 Feb 2010

Lt Col Anup Krishnan Janakiram (MR-07776W), AMC, 12 Feb 2010

Lt Col Vichare Nitin Vasant (MR-07777Y), AMC, 12 Feb 2010

Lt Col Sourav Bandyopadhyay (MR-07932P), AMC, 09 Feb 2010

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Sqn Ldr to be Wg Cdr

Sqn Ldr Aika Bakshi (MS-13771N) (AF-24726B), 30 Dec 2009

Sqn Ldr A Nagasubramanian (MS-13470K) (AF-25563H), 19 Jan 2010

Surg Lt Cdr to be Surg Cdr

Surg Lt Cdr Sudha Devi S (MS-13388P) (75669Z), 13 Jan 2010

Maj to be Lt Col

Maj Jayanti Banik (MS-13606H), 25 Feb 2010

Maj Nonika Goyal (MS-15005W), 15 Mar 2010

Maj Kurien George (MS-14065Y), 04 Jan 2010

Maj Debasis Majumdar (MS-13396N), 25 Jan 2010

Maj Rajan Malhotra (MS-13641L), 04 Feb 2010

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

Vitesh Popli (MR-08790P), AMC, 20 Jan 2010

Brajesh Kumar (MR-08910H), AMC, 20 Jan 2010

Mona Dubey (MR-08912N), AMC, 20 Jan 2010

Shailesh Mogra (MR-08934M), AMC, 27 Dec 2009

Vimal N (MS-15209H) (MR-08935P), AMC, 20 Jan 2010

Manish Kumar (MS-15245N) (MR-08939L), AMC, 21 Apr 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 Jan 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Shivani (MS-15451X) (MR-08940A), AMC, 22 Jan 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 18 Oct 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Flt Lt to be Sqn Ldr

Flt Lt Manish Kumar Singh (MS-14905N)/(AF-27668L), 04 Dec 2008

Flt Lt Rajeshwari K A (MS-15057M)/(AF-28368T), 12 Apr 2009

Flt Lt Vinod Kumar Verma (MS-15170F)/(AF-28402L), 16 Jun 2009

Flt Lt Vinoy Kumar Dubey (MS-15174X)/(AF-28394A), 16 Dec 2009

Flt Lt K Kanagaraju (MS-15176H)/(AF-28396H), 16 Dec 2009

Flt Lt Jyotsna Attri (MS-15177L)/(AF-28412S), 16 Dec 2009

Flt Lt Apoorv P Bajpai (MS-15179W)/(AF-28401H), 16 Dec 2009

Flt Lt Vijay Maitri (MS-15182W)/(AF-28400F), 16 Dec 2009

Flt Lt K Mani (MS-15189A)/(AF-28397L), 16 Dec 2009

Flt Lt Arun Kumar Patra (MS-15230L)/(AF-28398R), 16 Dec 2009

Flt Lt Rohit Vashisht (MS-15231N)/(AF-28410K), 16 Dec 2009

Flt Lt Neeti Sindhwani (MS-15238X)/(AF-28413A), 11 Feb 2010

Capt to be Maj

Capt Bhavesh Talera (MS-14914P), 27 Dec 2009

Capt Mohammad Anas Mazhar Aziz (MS-14917H), 27 Dec 2009

Capt Meenu Dangi (MS-14920H), 27 Dec 2009

Capt Sumit Kumar Agrawal (MS-14922N), 27 Dec 2009

Capt Arvind Semalti (MS-14937W), 27 Dec 2009

Capt Amit Kumar Srivastava (MS-14938Y), 27 Dec 2009

Capt Neha Goyal (MS-14944M), 27 Dec 2009

Capt Ankur Sharma (MS-14945P), 27 Dec 2009

Capt Parvesh Malik (MS-15940H), 18 Nov 2009

Capt Anupam Pareek (MS-15112X), 16 Dec 2009

Capt Purnima Sharma (MS-15123K), 16 Dec 2009

Capt Sunita Ghalotra (MS-15147N), 16 Dec 2009

Capt Taralkar Narendra Ramchandra (MS-15149Y), 16 Dec 2009

Capt Prabhu Desai Padmini Sandeep (MS-15156P), 16 Dec 2009

Capt Davender Singh (MS-15108P), 20 Jan 2010

Capt Bijoya Kumar Mallick (MS-15109X), 20 Jan 2010

Capt Pandya Kapil Hareshkumar (MS-15191X), 20 Jan 2010

Capt Vishram Maurya (MS-15204K), 20 Jan 2010

Capt Rajendra Pratap Singh (MS-15205M), 20 Jan 2010

Capt Sanjeev Kumar Katara (MS-15206P), 20 Jan 2010

Capt Mohammed Abdul Nazer A (MS-15210X), 20 Jan 2010

Capt Shailza Chaudhary (MS-15151W), 16 Dec 2009

Capt Amit Kumar Rai (MS-15198F), 20 Jan 2010

Capt Gnanasekaran R (MS-15211A), 20 Jan 2010

Capt Lenin Lousigam (MS-15212H), 20 Jan 2010

Capt Bachhav Nilesh Dadaji (MS-15213L), 20 Jan 2010

Capt P Karthikeyan (MS-15214N), 20 Jan 2010

Capt Sonavane Shrikant Ashokrao (MS-15215W), 20 Jan 2010

Capt Ravi Shankar Lal (MS-15216Y), 20 Jan 2010

Capt Naveen Kumar (MS-15220F), 20 Jan 2010

Capt Dharendra Nath Majhi (MS-15223P), 20 Jan 2010

Capt Bhanu Kumar Sharma (MS-15225A), 20 Jan 2010

Capt Divya (MS-15232W), 20 Jan 2010

Capt Gopal Krishna Yadav (MS-15399A), 20 Jan 2010

Capt Sujit Das (MS-15400K), 20 Jan 2010

Capt Tirthankar Kumar Ghose (MS-15317M), 22 Mar 2010

Surg Lt to be Surg Lt Cdr

Surg Lt Sidharth Sehrawat (MS-14867H)/(75857A), 09 Aug 2009

Surg Lt Sudhini Pavan Kumar (MS-14873W)/(75859F), 11 Aug 2009

PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Fatima Abbas Husainy (MR-08845N), AMC, 11 Feb 2010

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Lt to be Capt

Lt Dileep Kumar Shukla (NTR-16786F), 15 Feb 2010

Lt Amandeep Singh (NTR-16796L), 15 Feb 2010

Lt Surender Singh (NTR-16788M), 15 Feb 2010

Lt Bhupendra Singh Bhati (NTR-16789P), 15 Feb 2010

Lt Pradeep Kumar Singh (NTR-16790K), 15 Feb 2010

Lt Narendra Singh Rawat (NTR-16791M), 15 Feb 2010

Lt Mahesh Mahto (NTR-16793X), 15 Feb 2010

Lt Sahiduj Zaman (NTR-16794A), 15 Feb 2010

Lt Rakesh Kumar Sharma (NTR-16797N), 15 Feb 2010

Lt Paul Sanchayan (NTR-16798W), 15 Feb 2010

Lt Azad Khan (NTR-16799Y), 15 Feb 2010

Lt Goudappa Siddapur (NTR-16792P), 15 Feb 2010

Lt Shaikh Mujib (NTR-16795H), 15 Feb 2010

Lt Ramesh T (NTR-16787K), 15 Feb 2010

Lt Chougule Santosh Sakharan (NTR-16801L), 15 Feb 2010

Lt Anirban Choudhury (NTR-16802N), 15 Feb 2010

Lt Amit Kumar (NTR-16800H), 15 Feb 2010

SHORT SERVICE COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON-TECH)

Lt to Capt

Rank, Name, Personal Number and Date of Promotion

Lt Meren Wati (NTS-17557H), 15 Feb 2010

Lt Anuj Kumar (NTS-17560H), 15 Feb 2010

Lt Mahender Kumar Balmiki (NTS-17571P), 15 Feb 2010

Lt Sonawane Vilas Shankar (NTS-17558L), 15 Feb 2010

Lt Joyot Chattopadhyay (NTS-17559N), 15 Feb 2010

Lt Jithesh Nelloli Keloth (NTS-17561L), 15 Feb 2010

Lt Pankaj Rai (NTS-17562N), 15 Feb 2010

Lt Bhosale Satish Chandrasen (NTS-17563W), 15 Feb 2010

Lt Rupender Singh (NTS-17564Y), 15 Feb 2010

Lt Rohith CG (NTS-17565F), 15 Feb 2010

Lt Sushil Kumar (NTS-17566K), 15 Feb 2010

Lt Mintu Kumar (NTS-17567M), 15 Feb 2010

Lt Kailash Chand Samota (NTS-17568P), 15 Feb 2010

Lt Sunil Ekka (NTS-17569X), 15 Feb 2010

Lt Kamlesh Kumar (NTS-17570M), 15 Feb 2010

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

To be Capt

Lt Mohan Sharma (MS-15532X), 06 Feb 2008

Lt Dev Prakash Yadav (MS-15659A), 01 Feb 2009

To be Flt Lt

Fg Offr Akhileshwar Singh (MS-15499L)/(AF-28900A), 06 Feb 2008

Fg Offr Sharmila Mukherjee Singh (MS-15497A)/(AF-28895A), 10 Feb 2008

Fg Offr Ritu Ranjan Kumar (MS-15561M)/(AF-28910G), 28 Jun 2008

Fg Offr Ritika Chaudhry (MS-15650L)/(AF-29427K), 01 Feb 2009

YASH PANDE

Brig

Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 451, Dated 15th July 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Capt

Lt Gurmeet Singh (TA(NT)-1209), AMC (Non-Tech TA), 29 Apr 2009

Lt Shailesh Singh Chauhan (TA-42648), Inf, 11 Oct 2009

Lt Sanjay Prabhakar Raole (TA-42649), Inf, 14 Oct 2009

Lt Uttam Chakraborty (TA-42650), Inf, 24 Oct 2009

Lt Shivender Kumar Pandey (TA-42651), Inf, 24 Oct 2009

Lt Palden Thakur (TA-42652), Inf, 26 Oct 2009

Lt Kirti Kumar N Dave (TA-42653), Inf, 13 Oct 2009

Lt Ravi M Bisht (TA-42655), Inf, 25 Nov 2009

Lt K Shivashekhar Raju (TA-42656), Inf, 09 Nov 2009

Lt Bakhravphang S Kurbah (TA-42657), Inf, 23 Dec 2009

JAI RAJ

Under Secy

ARMY BRANCH

No. 452, dated 15th July 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

RECORDS THE MIR

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Satyavir Singh (JC-420160P), 03 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagat Singh (JC-420457W), 01 Jan 2010

Nb Sub Manbir Singh (JC-420573Y), 04 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surya Nath (JC-420261H), 01 Mar 2010

Nb Sub Dav Lal Singh (JC-420303K), 01 Mar 2010

Nb Sub Narayan Singh Danu (JC-420844L), 02 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Umesh Kumar (JC-420845N), 02 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Phool Singh (JC-421185N), 03 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

THE MECHNAISED INFANTRY REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Bahadur Mal Kumhar (No. 14915841M now JC-421523A), 24 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Gaya Prasad (No. 14914488Y now JC-421524H),
15 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
02 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Amol Chandra Roy (No. 14916383N now JC-
421525L), 27 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
07 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Rangumudri Rami Naidu (No. 14917357Y now JC-
421526N), 27 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
07 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bansi Dhar (No. 14915743M now JC-421527W),
11 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
22 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bhagirathi Chauhan (No. 14914450P now JC-
421528Y), 15 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ashwani Kumar (No. 14914620N now JC-421529F),
15 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav A Kanda Samy (No. 14915158M now JC-421530W),
15 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Lakhvir Singh (No. 14913712N now JC-421531Y),
09 Mar 2010

Hav Guna Sindhu Mohanta (No. 14914531P now JC-
421532F), 09 Mar 2010

Hav Avtar Krishan (No. 14914965P now JC-421533K),
09 Mar 2010

Hav Ravinder Kumar (No. 14917019F now JC-421534M),
09 Mar 2010

Hav Butta Singh (No. 14912565K now JC-421535P),
02 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Attar Singh (No. 14914748Y now JC-421536X),
01 Apr 2010

Hav Akhilesh Prasad (No. 14916127Y now JC-421537A),
01 Apr 2010

Hav Rajesh Kumar (No. 14915504X now JC-421538H),
01 Apr 2010

Hav Gorakh Nath Pandey (No. 14915902Y now JC-
421539L), 01 Apr 2010

Hav P Murugesan (No. 14917856N now JC-421540A),
01 Apr 2010

Hav Rajpal (No. 14916247X now JC-421541H), 01 Apr
2010

Hav Man Singh (No. 14916368Y now JC-421542L),
01 Apr 2010

Hav Diggpal Singh (No. 14917262Y now JC-421543N),
01 Apr 2010

Hav Raju Singh Rawat (No. 14917399L now JC-421544W),
01 Apr 2010

Hav T Kishore Kumar (No. 14917790H now JC-421545Y),
01 Apr 2010

Hav Ajay Kumar Singh (No. 14917979A now JC-421546F),
01 Apr 2010

Hav Gireesh Chandra Chandola (No. 14917963P now JC-
421547K), 01 Apr 2010

Hav Raj Kumar Prasad (No. 14918469L now JC-421548M),
01 Apr 2010

Hav Pradeep Kumar (No. 14917823H now JC-421549P),
01 Apr 2010

Hav Ram Bilash (No. 14918282Y now JC-421550K),
05 Apr 2010

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Naziruddin Khan (No. 14918395F now JC-421551M),
01 Apr 2010

Hav Jarnail Singh (No. 14918517A now JC-421552P),
01 Apr 2010

Hav Naravula A Nageswara Rao (No. 14918439N now
JC-421553X), 01 Apr 2010

Hav Ravinder Kumar (No. 14916795P now JC-421554A),
03 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bhoj Ram Verma (No. 14914689X now JC-421573L),
16 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Santosh Kumar RS (No. 14915145P now JC-421574N),
08 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Karam Singh Pal (No. 14915484P now JC-421575W),
08 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Pal (No. 14915362L now JC-421576Y),
07 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Atma Ram (No. 14915318F now JC-421577F), 24 Apr
2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Jagdish Nath (No. 14915575Y now JC-421578K),
08 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Janardan Singh (No. 14917896P now JC-421579M),
24 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Pirya Ranjan Kumar (No. 14917907W now JC-421580F),
01 Apr 2010

Hav Laxman Kumar Behra (No. 14914442W now JC-
421581K), 28 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
15 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ranjeet Singh (No. 14916133M now JC-421582M),
07 Apr 2010

Hav Kali Dass (No. 14918287X now JC-421583P), 04 May
2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Martand Singh (No. 14914487W now JC-421507H),
22 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Suresh Kumar Patel (No. 14918458Y now JC-
421508L), 15 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ramakant Pandey (No. 14917184M now JC-421509N),
9 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
07 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Autar (No. 2988001L now JC-421510H), 05 Feb
2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Krishna Bahadur Thapa (No. 14917042P now JC-
1511L), 11 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav K Muniandy (No. 14917694N now JC-421512N),
01 Feb 2010

Hav Thota Veera Reddy (No. 14916818L now JC-
421513W), 16 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bhim Singh (No. 14915717L now JC-421514Y),
11 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Nihal Singh (No. 14915738F now JC-421515F),
17 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Viju P (No. 14915257P now JC-421516K), 01 Mar
2010

Hav Ram Sumer (No. 14915258X now JC-421517M),
11 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Diwan Singh Patni (No. 14917722P now JC-421518P),
02 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kedar Bhaktraaj Dadaba (No. 14917794Y now JC-
421519X), 06 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Suresh Kumar (No. 14916374M now JC-421520M),
01 Mar 2010

Hav Swarup Singh Rathore (No. 2992012P now JC-
421521P), 01 Mar 2010

Hav Laxman Singh Rajpurohit (No. 2992019Y now JC-
421522X), 09 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

J ROY CHOWDHARY
Under Secy

ARMY BRANCH
REGULAR ARMY

ARMY SERVICE CORPS

(MECHANICAL TRANSPORT)

No. 453, Dated 15th July 2010—The President is pleased
to make the following promotions :—

To be Sub (MT/Spl)

Nb Sub Deep Naryan Singh (JC-664438P), 03 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009
without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ramesh Chand (JC-664421F), 12 Nov 2009*

Nb Sub Prem Singh (JC-664415N), 16 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 23 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Nemi Chand Khatri (JC-664539H), 09 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Narendra Kumar (JC-664594Y), 15 Nov 2009*

Nb Sub Mukeshwar Mahto (JC-664545W), 09 Nov 2009*

Nb Sub Satnam Singh (JC-664615K), 15 Oct 2009*

Nb Sub Gunendra Nath (JC-664476L), 28 Oct 2009*

Nb Sub Md Afsar Ali Sardar (JC-664595F), 27 Oct 2009*

Nb Sub Rup Chand (JC-664655L), 16 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Bindeshwar Singh (JC-664330X), 15 Oct 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 30 Aug 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Shailendra Singh (JC-664618X), 17 Nov 2009*

Nb Sub Manohar Lal (JC-664656N), 12 Nov 2009*

Nb Sub Md Miraj Sardar (JC-664624L), 12 Nov 2009*

Nb Sub Sudisht Yadav (JC-664626W), 12 Nov 2009*

Nb Sub Ram Pal (JC-664658Y), 28 Nov 2009*

Nb Sub Tarkeshwar Pandey (JC-664631F), 24 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Brij Bihari Singh (JC-664661Y), 06 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Rajendra Kumar Singh (JC-664641L), 09 Nov 2009*

Nb Sub Md Abdul Latif (JC-664667A), 10 Nov 2009*

Nb Sub Anil Kumar (JC-664664M), 10 Nov 2009*

Nb Sub Dharam Raj Ram (JC-664663K), 16 Nov 2009*

Nb Sub Joseph A (JC-664670A), 03 Nov 2009*

Nb Sub Kailash Chandra Tripathy (JC-664674W), 01 Dec 2009*

Nb Sub Gokul Sinha Ranjit Sinha (JC-664685H), 13 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ram Sewak Mistry (JC-664691W), 02 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Phool Chand Saini (JC-664686L), 01 Dec 2009*

Nb Sub Kishore Ch Majhi (JC-664703A), 01 Dec 2009*

Nb Sub Ram Chandra Dukia (JC-664690N), 01 Dec 2009*

Nb Sub Gopa Kumar KC (JC-664699H), 01 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ram Kumar Singh (JC-664019X), 03 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 23 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Prabal Pratap Singh (JC-664544N), 20 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 24 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Bhopal Singh Bisht (JC-664623H), 13 Oct 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Tarlok Prasad (JC-664636A), 30 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Puran Prasad (JC-664684A), 03 Nov 2009*

Nb Sub Ram Sukh Pandey (JC-664669L), 12 Nov 2009*

Nb Sub Avtar Singh (JC-664676F), 02 Dec 2009*

Nb Sub G Sampath (JC-664639N), 17 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Rama Chandra Mohanty (JC-664692Y), 01 Dec 2009*

Nb Sub Tilla Ram Godara (JC-664693F), 01 Dec 2009*

Nb Sub Md Riyajuddin (JC-664694K), 01 Dec 2009*

Nb Sub Panna Lal Singh (JC-664695M), 01 Dec 2009*

Nb Sub Pramod Kumar Sharma (JC-664696P), 01 Dec 2009*

Nb Sub Ramayan Tiwari (JC-664697X), 01 Dec 2009*

Nb Sub Bal Ram (JC-664704H), 01 Dec 2009*

Nb Sub Radha Krishanan Nair R (JC-664700M), 01 Dec 2009*

Nb Sub Subhash Chandra Biswas (JC-664702X), 01 Dec 2009*

Nb Sub Kanjan Singh (JC-664932L), 01 Dec 2009*

Nb Sub Ram Bahadur (JC-664708Y), 01 Dec 2009*

Nb Sub Uday Narayan Singh (JC-664814X), 01 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Mahesh Kumar Sharma (JC-664698A), 03 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Mohan Swamy (JC-664629K), 01 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Hajarat Ali (JC-664660W), 22 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ashokan E (JC-664701P), 07 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Gurvinder Singh (JC-664126Y), 01 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Kale Shilesh Kisan (JC-664687N), 01 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Upender Sharma (JC-664933N), 01 Jan 2010*

Nb Sub Kulaph Singh (JC-664816H), 01 Jan 2010*

Nb Sub Rajendra Prasad Choudhary (JC-664709F), 01 Jan 2010*

Nb Sub Son Bir (JC-664875P), 01 Jan 2010*

Nb Sub Abhi Ram Ghosh (JC-664710W), 01 Jan 2010*

Nb Sub Ashok Kumar Sharma (JC-664711Y), 01 Jan 2010*

Nb Sub Rajesh Kumar (JC-664712F), 01 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ramjeet Singh Chandel (JC-664713K), 15 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Bishan Singh Negi (JC-664610L), 12 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 23 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

To be Nb Sub (MT/Spl)

Hav Sadashiv Bhosale (No. 15357748L now JC-667067H), 21 Oct 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay & allowances)

Hav Sanjay Kumar Singh (No. 13898314W now JC-667068H), 19 Oct 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay & allowances)

Hav Makhan Singh (No. 13896429L now JC-667069N), 03 Oct 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay & allowances)

Hav Randhir Singh (No. 13896492A now JC-667070H), 17 Nov 2009*

Hav Bansi Lal (No. 13898476F now JC-667071L), 16 Nov 2009*

Hav Shaik Subhan (No. 15359725H now JC-667072N), 25 Nov 2009*

Hav Rakesh Kumar (No. 13898479P now JC-667073W), 16 Nov 2009*

Hav Sunil Kumar Singh (No. 13898491W now JC-667074Y), 14 Nov 2009*

Hav Sohan Lal (No. 13898480K now JC-667075F), 16 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay & allowances)

Hav Thiruppathi R (No. 13896058N now JC-667076K), 16 Nov 2009*

Hav Rajput Narendra Singh (No. 15359424Y now JC-667077M), 24 Nov 2009*

Hav Akil Khan (No. 13898150L now JC-667078P), 20 Nov 2009*

Hav Jeewan Ram (No. 13898163H now JC-667079X), 18 Nov 2009*

Hav Shiv Narayan (No. 13896561L now JC-667080M), 21 Nov 2009*

Hav Hari Shankar (No. 13898501P now JC-667081P), 21 Nov 2009*

Hav Jagbir Singh (No. 13897828F now JC-667082X), 23 Nov 2009*

Hav Shaik Abdul Rahiman (No. 15352406N now JC-667083A), 18 Nov 2009*

Hav Kuwar Singh (No. 13898361N now JC-667084H), 21 Nov 2009*

Hav Satya Pal (No. 13898875L now JC-667085L), 18 Nov 2009*

Hav Ramashray Singh (No. 13898493F now JC-667086N), 19 Nov 2009*

Hav Bhupendra Kumar Singh (No. 13898498A now JC-667087W), 24 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay & allowances)

Hav Ram Naresh Mishra (No. 13898284K now JC-667088Y), 27 Nov 2009*

Hav Yov Raj Singh (No. 13896192Y now JC-667089F), 28 Nov 2009*

Hav Kamal Chandra (No. 15359084F now JC-667090W), 23 Nov 2009*

Hav Raghunath Biswal (No. 15359664W now JC-667091Y), 18 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay & allowances)

Hav Tilok Ram (No. 13898359W now JC-668016F), 14 Dec 2009*

Hav Chhote Lal (No. 15355227Y now JC-668015), 30 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Aug 2009 without effect on pay & allowances)

Hav Jawahar Lal Patel (No. 13898580P now JC-668022P), 20 Nov 2009*

Hav Mohan (No. 15354291K now JC-668019P), 01 Dec 2009*

Hav Ram Dulare (No. 13896319W now JC-668023X), 01 Dec 2009*

Hav Mangal Prasad (No. 15355646W now JC-668021M), 01 Dec 2009*

Hav Lala Ram (No. 13896466Y now JC-668018M), 09 Dec 2009*

Hav Nago Jagdeo Chimkar (No. 13887927W now JC-668017K), 03 Dec 2009*

Hav Narayan Lal (No. 13895570A now JC-668020K), 16 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay & allowances)

Hav Dinesh Chandra (No. 13898073F now JC-668024A), 21 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay & allowances)

Hav Jangdeen (No. 13898195L now JC-667100P), 14 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay & allowances)

Hav Ramesh Chand (No. 13896426X now JC-667101X), 26 Dec 2009*

Hav Abhimanyu Singh (No. 15359624P now JC-667102A), 07 Oct 2009*

Hav Hardev Singh (No. 13898534A now JC-667103H), 07 Oct 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay & allowances)

Hav Babban Singh (No. 13895097H now JC-667104L), 30 Dec 2009*

Hav Lakhan Singh (No. 13896112W now JC-667105N), 22 Nov 2009*

Hav Dukhee Ram (No. 13898514M now JC-667106W), 29 Dec 2009*

Hav Arun Kumar Ray (No. 13898036N now JC-667108F), 03 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay & allowances)

Hav Kamal Nayan Sharma (No. 13898177H now JC-667107Y), 05 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Nov 2009 without effect on pay & allowances)

Hav Parit Bhujang Babu Rao (No. 13894604W now JC-665886N), 01 Oct 2007*

Hav Ram Singh (No. 13895607W now JC-665899L), 01 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances)

Hav Rohitas Kumar Meena (No. 13894549L now JC-665887W), 01 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances)

Hav Bhagwan Singh (No. 13895180X now JC-665888Y), 01 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances)

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Nb Sub

Hav Rajinder Singh (No. 15117272X now JC-274224Y), 21 Nov 2009/01 Jun 2009*

Hav Krishna Kumar Mukhiya (No. 15118590N now JC-274225F), 25 Nov 2009/01 Sep 2009*

Hav Gurcharan Singh (No. 15112807W now JC-274226K), 16 Nov 2009/01 Sep 2009*

Hav Shahaji Bajirao Patil (No. 14498489F now JC-274227M), 05 Nov 2009/23 Sep 2009*

Hav Pattan Mahaboob Khan (No. 15112847X now JC-274228P), 23 Nov 2009/01 Oct 2009*

Hav Rakesh Kumar (No. 14395865K now JC-274229X), 27 Nov 2009/14 Oct 2009*

Hav Chaudhary Dipak Nimba (No. 15120373W now JC-274230M), 23 Nov 2009/17 Oct 2009*

Hav Shirke Balasaheb Bapu P (No. 15113352X now JC-274231P), 16 Nov 2009/17 Oct 2009*

Hav Krishna Nand Chaudhary (No. 14394846M now JC-274232X), 02 Dec 2009/24 Oct 2009*

Hav Raju Newar (No. 15112704X now JC-274233A), 30 Nov 2009/29 Oct 2009*

Hav Jagmohan Sharma (No. 14401235H now JC-274234H), 23 Nov 2009/01 Nov 2009*

Hav Venkata Narsimha Rao V (No. 15121956L now JC-274235L), 20 Nov 2009/01 Nov 2009*

Hav Jaspal Singh (No. 14400614M now JC-274236N), 07 Dec 2009/11 Aug 2009*

Hav Anil Kumar Singh (No. 14409227Y now JC-274237W), 21 Dec 2009/31 Aug 2009*

Hav Ashok Kumar Yadav (No. 14499626F now JC-274238Y), 23 Dec 2009/18 Sep 2009*

Hav Kuchakar Vasant Savanta (No. 14391449H now JC-274239F), 29 Nov 2009/01 Oct 2009*

Hav Vishwas Laxman Ramchandra (No. 15109298X now JC-274240W), 01 Dec 2009/04 Oct 2009*

Hav Sunil Kumar Mandal (No. 15119609N now JC-274241Y), 04 Dec 2009/22 Oct 2009*

Hav Janaki Raman R (No. 14408303N now JC-274242F), 25 Nov 2009/29 Oct 2009*

Hav Kulwinder Singh Sekhon (No. 15111065P now JC-274243K), 28 Nov 2009/01 Nov 2009*

Hav Ravi Datt (No. 15110787P now JC-274244M), 02 Dec 2009/13 Nov 2009*

Hav Kirpal Singh (No. 14403696L now JC-274245P), 12 Dec 2009/15 Nov 2009*

Hav Mukesh Kumar Roy (No. 15118593F now JC-274246X), 22 Dec 2009/15 Nov 2009*

Hav Saikh Jafurulla (No. 14395557K now JC-274247A), 07 Dec 2009/23 Nov 2009*

Hav Basavaraj Harali (No. 14395378K now JC-274248H), 01 Jan 2010

Hav Narender Datt (No. 14395270M now JC-274249L), 01 Jan 2010

Hav Umesh Kumar Shakya (No. 13978709L now JC-274250A), 01 Jan 2010

Hav Om Prakash (No. 14396442H now JC-274251H), 01 Jan 2010

Hav R Anbalagan (No. 15103075K now JC-274252L), 02 Jun 2009/01 Apr 2009*

Hav Annam Nanage (No. 15118439H now JC-274253N), 05 Nov 2009/25 May 2009*

Hav Kanwar Singh (No. 15108199H now JC-274254W), 05 Nov 2009/01 Sep 2009*

Hav Subash Singh (No. 15109136M now JC-274255Y), 05 Nov 2009/24 Sep 2009*

*(Gtd Seniority wef)

A V BAGUR
Under Secy

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 454, dated 15th July 2010—The President is pleased to make the following Appointments/Promotions :—

Hav to be Nb Sub Master Tech (Radar)

Sri Prakash Singh (No. 14626022K now JC-764411M), 01 Dec 2009

Mastan Singh (No. 14626795K now JC-764412P), 07 Dec 2009/01 Dec 2009*

Ramakrishna Manik Reddy (No. 14626786H now JC-764413X), 01 Dec 2009

L Lawrence (No. 14626988K now JC-764414A), 01 Dec 2009

Arun Kumar Parida (No. 14626906W now JC-764415H), 01 Dec 2009

Panchanan Bag (No. 14627054Y now JC-764416L), 01 Dec 2009

Nook Raju Amarapini (No. 14627373L now JC-764417N), 01 Jan 2010/01 Dec 2009*

Deepak Singh Rawat (No. 14627375W now JC-764418W), 01 Dec 2009

A Sreedhar (No. 14627416P now JC-764419Y), 01 Dec 2009

Ravindra Kumar Mishra (No. 14628542N now JC-764420N), 01 Dec 2009

Arvind Kumar Singh (No. 14628553A now JC-764421W), 01 Dec 2009

Sanni Babumolli (No. 14628670L now JC-764422Y), 01 Dec 2009

Sikander Singh (No. 14629413A now JC-764423F), 01 Dec 2009

Jaspreet Singh (No. 14629488X now JC-764424K), 23 Dec 2009/01 Dec 2009*

Prasad H S (No. 14629528N now JC-764425M), 01 Dec 2009

Chikhcle Ramchandra S (No. 14630884A now JC-764426P), 01 Dec 2009

Anil Kumar (No. 14631809H now JC-764427X), 01 Dec 2009

V Velraj (No. 14631893N now JC-764428A), 01 Dec 2009

Kailash Chandra (No. 14603906K now JC-764429H), 01 Dec 2009

Girdhari Yadav (No. 14618506P now JC-764430X), 01 Dec 2009

Rajesh Kumar (No. 14625966Y now JC-764431H), 01 Dec 2009

Krishna Moorthy (No. 14626731Y now JC-764432H),
01 Dec 2009

Sumesh Kumar M (No. 14626834X now JC-764433L),
01 Dec 2009

Satyaveer Singh (No. 14626826Y now JC-764434N),
10 Dec 2009/01 Dec 2009*

Ayan Samanta (No. 14627032A now JC-764435W),
31 Jan 2010/01 Dec 2009*

Gulsher Ali (No. 14626930M now JC-764436Y), 01 Dec
2009

Darshan Singh (No. 14627099Y now JC-764437F), 01 Dec
2009

Shanmugam M (No. 14627856H now JC-764438K),
01 Dec 2009

Ganesh Ghosh (No. 14628464F now JC-764439M),
12 Jan 2010/01 Dec 2009*

Sankaran Kutty S (No. 14628488L now JC-764440F),
01 Dec 2009

Kamal Thapliyal (No. 14628568H now JC-764441K),
01 Dec 2009

Kate Sandip Shymrao (No. 14628516M now JC-764442M),
01 Dec 2009

Vinay Kumar (No. 14628572L now JC-764443P), 04 Dec
2009/01 Dec 2009*

Satya Prakash Mishra (No. 14628575Y now JC-764444X),
01 Dec 2009

Mahavir Singh (No. 14628580K now JC-764445A),
01 Dec 2009

Sanjeev Kumar (No. 14629496W now JC-764446H),
01 Dec 2009

Vijaya Kumar K N (No. 14629526H now JC-764447L),
08 Dec 2009/01 Dec 2009*

Achintya Dey (No. 14629695K now JC-764448N), 03 Dec
2009/01 Dec 2009*

Arup Chandra (No. 14629704A now JC-764449W),
01 Dec 2009

Sankar T (No. 14630110X now JC-764450L), 01 Dec 2009

Chiluvuri Satya Naga Raju (No. 14630914M now JC-
764451N), 01 Dec 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech (GCE)

Harish Chand (No. 14616627X now JC-764452W), 01 Dec
2009

Ajay Minhas (No. 14617254F now JC-764453Y), 01 Dec
2009

Patil Shrenik Dada (No. 14618374M now JC-764454F),
01 Dec 2009

Nawaghane Devaram Laxman (No. 14618885W now JC-
764455K), 01 Dec 2009

S Srinivasulu (No. 14619759W now JC-764456M), 02 Dec
2009/01 Dec 2009*

Lurendra Kumar Rahangdale (No. 14619389F now JC-
764457P), 01 Dec 2009

R Sreenivasa (No. 14620495M now JC-764458X), 09 Dec
2009/01 Dec 2009*

Amar Kumar Jena (No. 14620662X now JC-764459A),
01 Dec 2009

Suprova Ghosh (No. 14620690K now JC-764460P),
01 Dec 2009

Saheb Ram (No. 14621148A now JC-764461X), 01 Dec
2009

Sadhu Ram (No. 14621168N now JC-764462A), 15 Dec
2009/01 Dec 2009*

Dalvi Sambhaji Babaji (No. 14621505X now JC-764463H),
01 Dec 2009

Arote Dinkar Balabhau (No. 14624394W now JC-764464L),
01 Dec 2009

Pingale Vijay Gopichand (No. 14624404P now JC-
764465N), 01 Dec 2009

Pankaj Kumar Yadav (No. 14624500K now JC-764466W),
01 Dec 2009

Narendra Yadav (No. 14624515M now JC-764467Y),
01 Dec 2009

Suresh K (No. 14617188K now JC-764468F), 01 Jan 2010

Surender Mohan (No. 14617740Y now JC-764469K),
01 Jan 2010

Lalit Nand Kumar Zirpe (No. 14619423W now JC-
764470Y), 01 Dec 2010

Patil Bhaskar Shivji (No. 14619435L now JC-764471F),
01 Dec 2010

Jeeva Sukumaran Nair (No. 14619450A now JC-764472K),
01 Jan 2010

Satish Kumar (No. 14621215A now JC-764473M), 04 Jan
2010/01 Jan 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Comn

Polisetiv Surya Rao (No. 14621181X now JC-764474P),
01 Dec 2009

Jakkala Govinda Rao (No. 14621182A now JC-764475X),
01 Dec 2009

Venkatrao Rauthkar (No. 14621427L now JC-764476A),
01 Dec 2009

Bijaya Kumar Patel (No. 14621475L now JC-764477H),
01 Dec 2009

Dan Singh Mehta (No. 14621935F now JC-764478L),
01 Dec 2009

Vinod Kumar Singh (No. 14621943A now JC-764479N),
01 Dec 2009

Rajesh Kumar V (No. 14622482N now JC-764480H),
01 Dec 2009

Bharat Singh (No. 14622949N now JC-764481L), 01 Dec
2009

Santanu Pal (No. 14623481X now JC-764482N), 04 Dec
2009/01 Dec 2009*

Vaibhav Vishwanath Parte (No. 14624407H now JC-
764483W), 01 Dec 2009

Suresh Kumar S (No. 14625839K now JC-764484Y),
01 Dec 2009

Phool Chand Dhinwa (No. 14625858P now JC-764485F),
11 Dec 2009/01 Dec 2009*

Himadri Praharaj (No. 14617060Y now JC-764486K),
02 Dec 2009/01 Dec 2009*

Raj Kumar Yagik (No. 14619027A now JC-764487M),
01 Dec 2009

Ajay Kumar Ray (No. 14619030A now JC-764488P),
01 Dec 2009

Hoshiyar Singh (No. 14619031H now JC-764489X),
01 Dec 2009

Christu Dhas K (No. 14620493F now JC-764490M),
01 Dec 2009

Ashok Kumar (No. 14621934Y now JC-764491P), 01 Dec
2009

K Ezhumalai (No. 14621969P now JC-764492X), 21 Dec
2009/01 Dec 2009*

Chandrashekhar Mandvi (No. 14622043H now JC-
764493A), 19 Dec 2009/01 Dec 2009*

Mahendra Singh (No. 14623668K now JC-764494H),
01 Dec 2009

R Kandasamy (No. 14623675A now JC-764495L), 01 Dec
2009

Mahesh Kumar (No. 14623696W now JC-764496N),
19 Dec 2009/01 Dec 2009*

Patil Manoj Khapru (No. 14624397K now JC-764497W),
11 Dec 2009/01 Dec 2009*

Patil Naresh Raghunath (No. 14624403M now JC-
764498Y), 01 Dec 2009

Purushottam (No. 14624975N now JC-764499F), 12 Dec
2009/01 Dec 2009*

Bidya Nand Singh (No. 14598049H now JC-764500L),
1 Dec 2009

Dangeti Trimurthulu (No. 14613145X now JC-764501N),
01 Dec 2009

Manoj Kumar Singh (No. 14614822W now JC-764502W),
01 Dec 2009

Raja Tanwar (No. 14615165K now JC-764503Y), 01 Dec
2009

Kaushlendra Kumar Singh (No. 14616990N now JC-
764504F), 01 Dec 2009

Randhir Singh (No. 14617513Y now JC-764505K), 01 Dec
2009

M D Ekramul Haque (No. 14617554H now JC-764506M),
01 Jan 2010/01 Dec 2009*

Hav to be Nb Sub Machinist

Shaik Reyasat Ali (No. 14578258Y now JC-764507P),
23 Nov 2009/25 Oct 2009*

Maniraj Singh (No. 14581808F now JC-764508X), 18 Nov
2009/25 Oct 2009*

Hav to be Nb Sub Uphol

Uday Singh Tomar (No. 14568519N now JC-764509A),
01 Jan 2010

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Onkar Nath Mishra (No. 14586628H now JC-764632Y),
25 Jan 2010/03 Jan 2010*

Raghubir Lal (No. 14586981P now JC-764634K), 05 Feb
2010/01 Feb 2010*

Vishram Singh (No. 14588134X now JC-764640X), 01 Feb
2010

Rajesh Kumar (No. 14588142W now JC-764643L), 02 Mar
2010/01 Mar 2010*

Hari Narayan Singh (No. 14584379W now JC-764662W),
11 Feb 2010/31 Jan 2010*

*(Gtd ante dated seniority)

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

Amar Singh (No. 14591819F now JC-764573X), 01 Jan
2010

Murty Nagarachi (No. 14592195M now JC-764574A),
01 Jan 2010

Chavare Suresh Vasant (No. 14592211Y now JC-764575H),
01 Jan 2010

Hav to be Nb Sub Auto Elect B Veh

Thulaseedharan Pillai R (No. 14561848F now JC-764577N),
14 Dec 2009/01 Dec 2009*

Sanatan Pandey (No. 14562314H now JC-764578W), 02 Dec
2009/01 Dec 2009*

Mithlesh Kumar (No. 14563518F now JC-764579Y), 14 Dec 2009/01 Dec 2009*

Ram Pervesh Singh (No. 14563520Y now JC-764580N), 17 Dec 2009/01 Dec 2009*

Phool Kumar Jha (No. 14563522K now JC-764581W), 12 Dec 2009/01 Dec 2009*

Dina Nath Singh (No. 14563613N now JC-764582Y), 04 Jan 2010/01 Jan 2010*

Hav to be Nb Sub Tech SA

Prawin Kumar Choudhary (No. 14572831N now JC-764583F), 04 Oct 2009

Hav to be Nb Sub Tech (R)

Ashok Pratap Singh (No. 14573895L now JC-764584K), 01 Jan 2010/08 Nov 2009*

Hav to be Nb Sub Master Tech Comn

Arjun Singh (No. 14621945L now JC-764585M), 24 Dec 2009/01 Dec 2009*

Hav to be Nb Sub Master Tech (Net Working)

Yashpal Singh Negi (No. 14617738F now JC-764586P), 01 Feb 2010

Loka Nand (No. 14614737N now JC-764557A), 01 Dec 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech GCE

Jagtap Vikas (No. 14621509N now JC-764587X), 31 Dec 2009/01 Dec 2009*

Senthil Kumar M (No. 14620573Y now JC-764588A), 01 Jan 2010

Yogendra Kumar (No. 14621201A now JC-764589H), 03 Jan 2010/01 Jan 2010*

Hav to be Nb Sub SKT

Ghulam Nabi Khan (No. 14604916A now JC-764590X), 19 Dec 2009/06 Dec 2009*

Beloshe Bharat Babu Rao (No. 14603130F now JC-764591A), 29 Dec 2009/01 Dec 2009*

Rabindra Chandra (No. 14613174M now JC-764592H), 01 Jan 2010

Sheetaj Singh (No. 14613528K now JC-764593L), 01 Jan 2010

Lalit Kumar (No. 14613530F now JC-764594N), 01 Jan 2010

Parveen Kumar (No. 14613549A now JC-764595W), 01 Jan 2010

Mitu Lal Kathak (No. 14613550P now JC-764596Y), 01 Jan 2010

Bhairu Singh (No. 14613553H now JC-764597F), 01 Jan 2010

Ram Niwas (No. 14613544F now JC-764598K), 06 Jan 2010/01 Jan 2010*

Kajal Krishna Majumder (No. 14613564P now JC-764599M), 01 Jan 2010

Satyanarain Singh (No. 14613676P now JC-764600W), 01 Jan 2010

Balwant Singh (No. 14613556W now JC-764602F), 01 Jan 2010

Nihal Singh (No. 14584568A now JC-764603K), 02 Jan 2010/01 Jan 2010*

Amalendu Dey (No. 14612914K now JC-764604M), 01 Jan 2010

Goban Singh Rathaur (No. 14583034H now JC-764605P), 07 Jan 2010/01 Jan 2010*

Debdas Roy (No. 14613666L now JC-764606X), 01 Jan 2010

Kuldeep Singh (No. 14613833W now JC-764607A), 01 Jan 2010

K M Rajendran (No. 14613835F now JC-764608H), 01 Jan 2010

Kurariya (No. 14604882X now JC-764609L), 01 Jan 2010

Radhey Shyam Bhakta (No. 14605007F now JC-764610A), 01 Jan 2010

Ashok Kumar Baral (No. 14601844W now JC-764611H), 01 Jan 2010

Hav to be Nb Sub Auto Tech A Veh

Raghu Nandan (No. 14565122W now JC-764612L), 01 Jan 2010/01 Dec 2009*

Hav to be Nb Sub Auto Tech Engr Eqpt

Mahendranath (No. 14564599Y now JC-764613N), 30 Dec 2009/01 Dec 2009*

Moti Chand (No. 14564611P now JC-764614W), 30 Dec 2009/01 Dec 2009*

Hav to be Nb Sub Opr & Dvr Rec

Ramkishor Singh (No. 14563122X now JC-764615Y), 01 Dec 2009

Sardar Singh (No. 14563124H now JC-764616F), 02 Jan 2010/01 Dec 2009*

Gopi Raman (No. 14563146F now JC-764617K), 29 Dec 2009/01 Dec 2009*

Hav to be Nb Sub Musician

Sanjay Kumar Rai (No. 14598768F now JC-763703H), 24 Dec 2009/25 Oct 2009*

*(Gtd ante dated seniority)

N K KASHMIRA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 455, dated 16th July 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

To be Nb Sub

BHM Rajesh Kumar (No. 2681633P now JC-826228P), 4 Feb 2010/01 Feb 2010*

BHM K Selvam (No. 2592204Y now JC-826229X), 01 Feb 2010

BHM Kamal Singh (No. 2989206M now JC-826230M), 1 Mar 2010

*(Date of seniority)

PRIT PAL SINGH
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 456, dated 16th July 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMED CORPS RECORDS

To be Nb Ris

Dfr (Dvr/Gnr) Onkar Singh (No. 1089670K now JC-44127M), 08 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Sunil Kumar (No. 1088275K now JC-44128P), 08 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 21 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Mohinder Singh (No. 15461637A now JC-4079X), 23 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Rajendra Singh (No. 1087434K now JC-4117H), 28 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Ganpat Ram (No. 10883225K now JC-4118L), 28 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Mritunjay Kumar (No. 1098947Y now JC-244119N), 28 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Siva Kumar A (No. 1546198A now JC-244099L), 06 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) R Stephen (No. 15461199H now JC-244100P), 06 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Ram Parkash (No. 15463699Y now JC-244129X), 08 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Kishan Singh (No. 1089465H now JC-244122N), 01 Feb 2010

Dfr (Opr/Gnr) Rajbir Singh (No. 1089934A now JC-244108F), 01 Feb 2010

Dfr (Dvr/Opr) Raj Singh (No. 1099213K now JC-244121L), 09 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Hari Singh (No. 1099550Y now JC-244078P), 01 Feb 2010

Dfr (Dvr/Gnr) Babalal Multani (No. 15461249H now JC-244120H), 01 Feb 2010*

Dfr (Gnr/Opr) Gopal Singh (No. 15462245Y now JC-244179H), 12 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Harendra Singh (No. 1088240N now JC-244161M), 03 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Saktoo Ram (No. 1089239L now JC-244110Y), 21 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 09 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Somnath (No. 1099706L now JC-244191K), 16 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Lovemon PA (No. 1089962M now JC-244150A), 22 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Tejinder Singh (No. 15461757Y now JC-244113M), 24 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Santosh Kumar Singh (No. 15462538K now JC-244163X), 03 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Kulwant Singh (No. 1084071A now JC-244182H), 08 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Jagir Singh (No. 1089910W now JC-244165H), 02 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Karana Singh Rathore (No. 1098729A now JC-244168W), 08 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Manjit Singh (No. 15461994H now JC-244164A), 02 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Kabi Raj Singh Adhikari (No. 1088066M now JC-244184N), 12 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 07 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Girdhari Singh Inda (No. 15463983P now JC-244139F), 20 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Chandra Bhushan Tiwari (No. 1089477X now JC-244140W), 22 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Vijay Bahadur Singh (No. 15461728K now JC-244067H), 23 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Dileep Singh (No. 1082715W now JC-244143K), 02 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Shinde Nana Saheb Yashvant (No. 1089265M now JC-244105N), 18 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Narpat Singh (No. 15461024A now JC-244145P), 25 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Ram Pal (No. 15461528N now JC-244146X), 25 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Kanwar Sen (No. 15461952W now JC-244147A), 25 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Palwinder Singh (No. 15464178X now JC-244141Y), 26 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Gagan Bihari Nayak (No. 15461441M now JC-244148H), 24 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 23 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Mohammad Abbas (No. 15463663A now JC-244116A), 15 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Anand Singh (No. 1098892A now JC-244155Y), 02 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Anil Kumar Tiwari (No. 15461010A now JC-244123W), 03 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

J ROY CHOWDHARY
Under Secy

(ARMY BRANCH)

No. 457, dated 16th July 2010—The President is pleased to permit the undermentioned officers relinquished his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 30 Dec 2009 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Shivani (MS-15451X) (MR-08940A), AMC, 22 Jan 2007 with seniority for pay and promotion from 22 Jan 2004 (this includes 36 months antedate seniority for Doctor of Medicine which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 May 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Manish Kumar (MS-15245N) (MR-08939L), AMC, 21 Apr 2006 with seniority for pay and promotion from 21 Apr 2003 (this includes 36 months antedate seniority for Doctor of Medicine (Paediatrics) which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 08 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Vimal N (MS-15209H) (MR-08935P), AMC, 20 Jan 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Feb 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)

(FINANCE DIVISION)

No. 458, dated 16th July 2010—The President is pleased to retire Smt Indu Liberhan, Secretary (Defence Finance), Ministry of Defence (finance) from Government Service with effect from 31.05.2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

R C MEENA

Asstt Financial Adviser (E)

No. 459, dated 19th July 2010—The President is pleased to permit the following officers to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform :—

TERRITORIAL ARMY

Retirement

Col SK Pareek (TA-41708), Infantry, 31 Mar 2010 (AN)

Lt Col R S Yadav (TA-41949), Engr (TA), 31 Dec 2010 (AN)

Lt Col Suresh Kumar (TA-41796), Engr, 31 Dec 2008 (AN)

JAI RAJ
Under Secy

AIR BRANCH

No. 460, dated 19th July 2010—The President is pleased to transfer the undermentioned officer from F(P) to Administrative Branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Admin Branch, the officer will be placed between Flt Lt SP Sunil (29087) Adm and Flt Lt BS Rathore (29254) Adm in the AF List. The officer will not be entitled to Flying Pay with effect from the date of obtaining permanent low non-flying medical category i.e. 15 Jun 2009 vide Air HQ/21901/29053/PO-3(E) dated 14 Oct 2009.

Fg Offr H Singh (29053) F(P) to Adm wef 15 Jun 2009.

S SACHDEVA
Wg Cdr
JDPO-3(E)

ARMY BRANCH
CORRIGENDUM

No. 461, dated 19th July 2010—In Government of India, Ministry of Defence, Notification No. 36 published in the Gazette on (dated 05 Sep to 11 Sep 2009, Page No. 1470), under heading Regular Army, Permanent Commission, to be Substantive Maj Gen, Army Branch is hereby amended as under :—

FOR : Brig AK Bakshi, SM, VSM, (IC-33997), Bihar, 21 Nov 2008 with seniority from 03 Oct 2007 without effect on pay and pension

READ : Brig AK Bakshi, SM, VSM, (IC-30997), Bihar, 21 Nov 2008 with seniority from 03 Oct 2007 without effect on pay and pension

NK PHUKAN
Dir/MS(X)

No. 462, dated 19th July 2010—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officer with effect from the date mentioned against him/her :—

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)

To be Srug Cdr

(CORRIGENDUM)

The name in respect of Srinivas Pattnaik (MS-12639F) (MR-07156F), AMC at the Gazette Notification published on 04 Jul 2009 is amended as follows :—

FOR : Srinivas Pattanaik

READ : Srinivas Pattnaik

To be Srug Lt Cdr

(CORRIGENDUM)

The name in respect of Srinivas Pattnaik (MS-12639F)(MR-07156F), AMC at the Gazette Notification published on 14 Aug 1999 is amended as follows :—

FOR : Srinivas Pattanaik

READ : Srinivas Pattnaik

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 20 Jan 1998 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)

To be Srug Cdr

(CORRIGENDUM)

The name in respect of Srinivas Pattnaik (MS-12639F)(MR-07156F), AMC at the Gazette Notification published on 15 May 1999 is amended as follows :—

FOR : Srinivas Pattanaik

READ : Srinivas Pattnaik

YASH PANDE

Brig

Dy DGAFMS(HR)